



My Brother is No More...

As senior Customs officer, confiscating foreign goods, including Sony Walkman portable cassette players, he asked me to bring him one from the US. "Why? Have you not confiscated any?" He just said, "I don't have one. Just bring it."

राष्ट्रदूत

Rashtrdoot

New Travel Trend

The appeal of 'flying naked' lies in its simplicity. It allows for quicker airport navigation and reduced stress.

सी.डब्ल्यू.सी. की बेलगावी बैठक में कुछ ठोस नहीं हुआ: बैठक केवल प्रतीकात्मक ही रही!

तीन घंटे की बैठक में कांग्रेस ने संविधान, अंबेडकर का अपमान, जातिगत जनगणना के बारे में अपनी चिर-परिचित सोच को दोहराया

-रेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। कांग्रेस काँग्रेस काँग्रेस (सी.डब्ल्यू.सी.) की बहु-प्रचारित मीटिंग, जो कर्नाटक के बेलगावी में हुई, वास्तविक से कहीं ज्यादा, प्रतीकात्मक थी। मीटिंग में उस ऐतिहासिक दिन को बड़ी श्रद्धा के साथ याद किया, जब, भारत लौटने के बाद, महात्मा गांधी आज से 100 वर्ष पहले 26 दिसम्बर को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाये गये थे। कांग्रेस ने नरेन्द्र मोदी की राजनीति के विरुद्ध अपने रुख तथा सोच, चाहे वह संविधान के बारे में हो, भीमराव अंबेडकर के बारे में हो या विदेश नीति के बारे में हो, को दोहराया। मीटिंग में इस बिन्दु विचार हुआ कि जातीय जनगणना कराये जाने, तथा दलितों, पिछड़ों तथा अन्य वर्गों के लिये आरक्षण बढ़ाने के लिये संघर्ष को किस तरह आगे बढ़ाया जायेगा। लेकिन संगठन के बारे में न के बराबर ही चर्चा हुई। खड़गे ने यह जरूर कहा कि पूरे संगठन का ढाँचा

■ कांग्रेस अध्यक्ष ने यह जरूर कहा था बैठक के पहले कि संगठन में आमूल परिवर्तन पुनर्गठन होगा। रिक्त पद भरे जायेंगे तथा सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।

■ उदयपुर में भी संगठन के बारे में ऐसे कई निर्णय लिये गये थे, कोई सा भी निर्णय क्रियान्वित नहीं हुआ है।

■ तीन घंटे की बैठक में इस बात पर कुछ भी मंथन नहीं हुआ कि आखिर पार्टी की हालत इतनी गड़बड़ क्यों है तथा पार्टी अब चुनाव जीतने की कला कैसे भूल गई है।

■ तथा राहुल गांधी उस सही आदमी को क्यों नहीं ढूँढ पाये, जो संगठन के छोटे-मोटे सभी निर्णय ले सके तथा पार्टी का चार्ज संभाल ले।

■ एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने बैठक के बाद टिप्पणी की कि केवल मोदी की आलोचना करने से कुछ होने वाला नहीं है। फोकस पार्टी पर होना चाहिए तथा चुनाव जीतने पर होना चाहिए।

में बहुत से निर्णय लिये गये थे, लेकिन अब तक उनमें से किसी पर भी अमल नहीं हुआ है। तीन घंटे की इस प्रतीकात्मक मीटिंग में इन बिन्दुओं पर कोई गहन चर्चा नहीं हुई कि कांग्रेस की असली बीमारी क्या है, अब यह चुनाव जीतने वाली पार्टी क्यों नहीं रही है तथा राहुल संगठन का सही माइक्रोमैनेजमेंट तलाशने में असमर्थ क्यों रहे हैं।

सोनिया गांधी सी.डब्ल्यू.सी. में उपस्थित नहीं हुई थीं, लेकिन उन्होंने सदस्यों के लिये एक संदेश भेजा था।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते रहने से कांग्रेस को चुनाव जीतने में कोई मदद नहीं मिलनी है।

पार्टी, तथा चुनाव जीतने पर फोकस जरूरी है।

सी.डब्ल्यू.सी. के प्रस्ताव में राहुल गांधी द्वारा प्रायः दोहराये जाने वाले उनके प्रिय बिन्दु ही थे, जिन्हें वे हर अवसर पर दोहराते रहते हैं।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में (शेष पृष्ठ 3 पर)

बदला जायेगा तथा सुधार किया जायेगा, खाली पद भरे जायेंगे तथा सभी वर्गों को समुचित स्थान दिया जायेगा। उन्होंने, कुल मिलाकर, संगठन को पार्टी पर लाने की जरूरत बताई। उदयपुर में भी, संगठन के सम्बंध

डॉ.मनमोहन सिंह का निधन

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें आठ बजे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के इमरजेंसी वॉर्ड में भर्ती कराया गया, रात 9:51 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

■ शाम को अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया था। दो घंटे बाद उनका देहान्त हो गया।

मनमोहन सिंह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है।

इस खबर के बाद कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वार्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) की मीटिंग रद्द कर दी गई है। साथ ही 27 दिसंबर को होने वाले सभी प्रोग्राम भी कैसिल कर दिए (शेष पृष्ठ 3 पर)

आर.एस.एस. के मुख पत्र ने मोहन भागवत की टिप्पणी की आलोचना की

भागवत ने कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद कई नेता यह मानने लगे हैं कि कई जगहों पर ऐसे मंदिर-मस्जिद विवाद उठाकर वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, जो गलत है

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। एक के बाद एक मंदिर-मस्जिद विवादों के उठाए जाने पर मोहन भागवत की आलोचनापूर्ण टिप्पणियों को लेकर हिन्दू संतों द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त किये जाने के बाद, आर.एस.एस. के मुख पत्र, ऑर्गनाइज़र ने भी प्रतिकूल रुख अपनाते हुये कहा है कि "विवादित स्थलों तथा इमारतों का वास्तविक इतिहास जानना सभ्यता संबंधी न्याय के लिए महत्वपूर्ण है।"

पुणे के एक समारोह में भागवत ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद, कुछ लोग इस विचार से प्रेरित प्रतीत हो रहे हैं कि वे इस प्रकार के विवाद खड़े करके हिन्दुओं के नेताओं के रूप में उभर सकते हैं।

हिन्दू संतों के एक संगठन, अखिल भारतीय संत समिति ने भागवत की आलोचना की तथा कहा कि सबसे अच्छी बात यह होगी कि इस प्रकार के मामलों का निर्णय आर.एस.एस. नहीं करे तथा यह काम धार्मिक नेताओं के लिये छोड़ दिया जाये। समिति के महासचिव, स्वामी जितेन्द्रानन्द सरस्वती

■ मुख पत्र ऑर्गनाइज़र की राय इसके विपरीत है, उसने कहा कि किसी भी हिंदू/मुस्लिम स्थल का इतिहास जानना जरूरी है, जिससे सांस्कृतिक न्याय मिल सके। इसी से दोनों समुदायों के बीच स्थाई शांति व सद्भाव बना रहेगा।

■ साथ ही यह भी कहा है कि "अण्डरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ" आवश्यक है। यह जानना जरूरी है कि विदेशी आक्रमण के बाद धार्मिक स्थल किस तरह से नष्ट हुए।

ने कहा था, "जब धर्म का विषय उठता है, तो उसका निर्णय करना धार्मिक गुरुओं का काम है और वे जो भी निर्णय लेंगे, वह संघ और वी.एच.पी. (विश्व हिन्दू परिषद) को स्वीकार होगा।"

"ऑर्गनाइज़र" के ताजा अंक की कवर स्टोरी में यही बात कही गई है, हालांकि, ऑर्गनाइज़र ने भागवत के नाम का उल्लेख नहीं किया है। संपादकीय में यह तर्क दिया गया है कि संघल की शाही जामा मस्जिद के स्थान पर मंदिर था।

ऑर्गनाइज़र में प्रकाशित लेख कहता है, "जिन धार्मिक स्थलों पर अतीत में हमला हुआ या ध्वस्त कर दिया गया, उनसे संबंधित सच को समझना महत्वपूर्ण है।" ये सारी घटनाएं एवं चर्चाएं ऐसे समय

पर हो रही हैं, जब अदालतों में ऐसी अनेक याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, जिनमें संघल की शाही जामा मस्जिद से लेकर अजमेर के दरगाह तक, देश के विभिन्न भागों में स्थित मुस्लिम मस्जिदों तथा मकबरों के सर्वे की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने नये मंदिर-मस्जिद मुकदमों को फिलहाल रोक देने के आदेश जारी कर दिये हैं।

लेकिन ऑर्गनाइज़र ने दलील दी है कि इतिहास की सच्ची समझ सभ्यता-संबंधी न्याय (सिविलाइजेशनल जस्टिस) प्राप्त करने तथा सभी समुदायों के बीच शांति और सामंजस्य को बढ़ाने के लिये अत्यावश्यक है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

युवा दलित नेता हो सकता है भाजपा का अगला अध्यक्ष?

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का सामना करने के लिये पार्टी अध्यक्ष पद के लिये किसी दलित युवा नेता का चयन कर

■ चर्चा है कि अंबेडकर के मुद्दे पर भाजपा को दलित विरोधी करार देने के कांग्रेस के प्रचार को मात देने के लिए भाजपा यह कदम उठाने पर विचार कर रही है।

सकती है। बुधवार को भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के निवास पर एन.डी.ए. नेताओं की मीटिंग हुई तथा शाह द्वारा बाबासाहेब अंबेडकर के अपमान के कांग्रेस के आरोपों की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस जनता का ध्यान खींचने के लिए यह सब कर रही है।

15 लाख रूपए सालाना आय पर आयकर में कटौती हो सकती है?

रॉयटर्स ने बताया कि भारत सरकार आगामी बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के उपायों पर विचार कर रही है

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। कहा जा रहा है कि सरकार सालाना 15 लाख रूपए कमाने वालों के लिए आयकर में कटौती करने जा रही है। इससे लाखों शहरी करदाताओं को लाभ हो सकता है। रॉयटर्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि वर्ष 2025-26 के केन्द्रीय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने और खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार कई उपाय घोषित कर सकती है।

इस प्रस्ताव से करदाता को 2020 की कर प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिसमें मकान किराए जैसी छूट समाप्त कर दी गई है, पर इसमें आयकर की दरें कम हैं। इस प्रणाली के तहत 3 से 15 लाख रूपए के बीच की आय पर 5 से 20 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है तथा 15

■ भारत में अभी इन्कम टैक्स की दो व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, पुरानी में मकान किराया और बीमा पर टैक्स राहत दी जाती है, पर नई व्यवस्था में 3 से 15 लाख रूपए सालाना आय पर 5 से 20 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है।

■ नई प्रणाली में तीन से सात लाख रूपए सालाना आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रूपए पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रूपए पर 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख रूपए सालाना आय पर 20 प्रतिशत तथा 15 लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है।

■ सरकार 15 लाख रूपए तक की आय पर इनकम टैक्स घटा कर मध्यम वर्ग को नई टैक्स प्रणाली की ओर आकर्षित करना चाहती है। अभी यह तय नहीं है कि कितनी कटौती होगी।

लाख रूपए से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है। विशेष रूप से नए टैक्स सिस्टम में 3 लाख रूपए की आय पर 0 प्रतिशत, 3 से 7 लाख रूपए की आय पर 5 प्रतिशत, (शेष पृष्ठ 3 पर)

गत वर्ष में तीन सर्वोच्च स्तर के सेना अधिकारी बर्खास्त किये गये हैं चीन में

इन बर्खास्तियों का कारण औपचारिक रूप से भ्रष्टाचार बताया जाता है, पर, वास्तविक कारण है, राष्ट्रपति ज़ी को किसी भी तरह से चुनौती देने वाले सैन्य संगठन में कभी पनप ही नहीं पायें

-अंजन राँय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। चीन अपने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के ढांचे में व्यापक बदलाव कर रहा है। एक प्रमुख न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार, मिलिटरी हायरार्की (सैन्य पदानुक्रम) के उच्च स्तर पर लोगों को बर्खास्त किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ने इसे मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और अधिकारियों द्वारा धन कमाने के खिलाफ की गई कार्यवाही कहा है। तथापि, जिस तरह से मुख्य अधिकारियों को निकाला जा रहा है, उसमें राजनीतिक एंगल नज़र आता है।

■ लगातार, सेना के कमाण्ड स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके, नेतृत्व की दृष्टि से राष्ट्रपति ज़ी, किसी समान्तर, "पावर सेंटर" (सत्ता के केन्द्र) को उगाने ही नहीं देते।

■ पर, "कमाण्ड स्ट्रक्चर" में लगातार ही अधरसूल की स्थिति बने रहने के दुष्प्रभाव भी हैं। छोटे से देश वियतनाम के समक्ष युद्ध में चीन को घुटने टेकने पड़े थे।

■ पर, यह भी सच है कि विश्व की सबसे विशाल चीन की सेना, जिसमें दो करोड़ सैनिक हैं, के लिये साज, सामान, इमारतों का निर्माण लगातार द्रुत गति से हरदम चलता है। दोनों मदों में भारी धन राशि खर्च होती है। अतः भ्रष्टाचार का भी पूरा "स्कोप" बना रहता है।

कम्युनिस्ट पार्टी जनरल सैक्रेटरी और चीन के राष्ट्रपति, शी जिनपिंग लगातार अपनी सुप्रीम पावर प्रमाणित करना और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश में कोई समानान्तर "पावर सेंटर" (सत्ता का केन्द्र) नहीं हो।

सैंट्रल मिलिटरी कमिशन, जो चीन के सैन्य मामलों में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है, में अब, अध्यक्ष शी जिनपिंग के अलावा केवल दो ही सदस्य हैं। रक्षा मंत्री तथा कमिशन के अन्य सदस्यों सहित, छः अधिकारियों को पिछले कुछ सालों में हटा दिया गया है। लगातार हो रहे बदलाव तथा उच्च (शेष पृष्ठ 3 पर)



राजस्थान सरकार

अपील

प्रिय नागरिकों,

हमारे राज्य में सड़क दुर्घटनाओं और इनसे होने वाली मौतों हम सभी के लिए एक गहरी चिंता का विषय है। ये दुःखद घटनाएं हमारे समाज के कई घरों में अंधकार ला देती हैं—किसी मां से उसका बेटा छीन लेती हैं, किसी बच्चे को अनाथ बना देती हैं। इस पीड़ा को समझते हुए, मैं आपसे संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ अपील कर रहा हूँ।

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और पीड़ितों की जीवन रक्षा के लिए हमने 6E रणनीति (एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, इवैल्यूएशन और एंगेजमेंट) को अपनाते हुए समन्वित प्रयास करने का निर्णय लिया है। लेकिन यह प्रयास तभी सफल हो सकता है, जब आप सभी का सहयोग और समर्थन हमारे साथ हो। आइए, हम मिलकर इस गंभीर चुनौती का सामना करें और अपने परिवार एवं समाज को सुरक्षित रखें।

आपकी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाएँ:

- सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें: हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। यह एक छोटा कदम है, लेकिन आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- ट्रैफिक नियमों की जानकारी लें: सड़क सुरक्षा की शिक्षा हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अपने बच्चों को भी इन नियमों के प्रति जागरूक बनाएं।
- रात्रि वाहन चालन में सावधानी बरतें: हाई बीम लाइट का उपयोग न करें और शराब पीकर वाहन चलाने से बचें। अपने प्रियजनों के बारे में सोचें और सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित अपने घर लौट सकें।
- दुर्घटना की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दें: तुरंत आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और घायलों की सहायता करें। हर जीवन मूल्यवान है और आपकी त्वरित मदद किसी की जान बचा सकती है।

आप सभी से आग्रह है कि अपने समुदाय और स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लें।

आइए, हम सभी यह संकल्प लें कि अपने राज्य को सड़क दुर्घटनाओं से मुक्त बनाएं। आपका सुरक्षित जीवन हमारे लिए सर्वोपरि है।

धन्यवाद।

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राजस्थान



परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित

विचार बिन्दु

आत्मा ही अपना स्वर्ग और नरक है। -उमर खैयाम

सांसदों को सदन में बोलने की पूर्ण आजादी है, उन्हें उन्मुक्ति (Immunity) व विशेषाधिकार (Privileges) प्राप्त है

भा रत को संसद राष्ट्रपति तथा राज्य सभा व लोकसभा से मिलकर बनी है। इनमें जो केवल लोकसभा की विधित्त हो सकता है। राज्यसभा एक शाश्वत सभा है। इसके अतिरिक्त यह अनिवार्य है कि संसद राष्ट्रपति तथा ऐसा व्यक्ति हो जो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करे। राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की बैठक आहूत करते हैं।

संसद लोकतंत्र का मंदिर है। यह लोकसभा यानी लोक सदन है। सांसदों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। कोई व्यक्ति लोकसभा के लिये चुने जाने का तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो। लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इस पद आसीन अधिकारी को स्पीकर भी कहते हैं। यह पद प्रतिष्ठा, प्रताप और अधिकार वाला होता है। अध्यक्ष का दायित्व है कि वह सदन को कार्यवाही का सहज व सुव्यवस्थित ढंग से संचालन करे। सदन के अन्दर तथा सदन से संबंधित सभी मामलों में अध्यक्ष का कथन सर्वक के लिये मान्य होता है। सदन अपनी प्रक्रिया का सर्वाधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार सदन अपनी प्रक्रिया के तथा कार्य संचालन के लिये नियम बना सकता है। यों अध्यक्ष का पद साधारणतः हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के समान होता है।

संसद की किसी कार्यवाही की वैधता को किसी अधिकृत अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती और संसद का कोई अधिकारी या संसद सदस्य प्रक्रिया विनियमन अथवा कार्य संचालन के मामलों किसी शक्ति के प्रयोग के लिये न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 122 इस बाबत स्पष्ट निर्देश देता है कि न्यायालयों द्वारा संसद को कार्यवाहियों की जांच नहीं की जावेगी।

संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के दोनों सदनों उनके सदस्यों तथा उनकी समितियों के अधिकारों व विशेष अधिकारों आदि के बाबत प्रावधान दिये गये हैं। विशेषाधिकार ऐसा अधिकार है जिसके बिना सांसद अपने कृत्य का निर्वहन नहीं कर सकते जिसकी उनके अपेक्षा की जाती है। यों सांसदों को भी वे सब अधिकार तो हैं ही जो सामान्य नागरिक को हैं, किन्तु जब वे संसद में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया है। इस विशेषाधिकार में संसद में बोलने की आजादी। उन्हें अपनी कही हुई बात के लिये न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। उन्हें संविधान के उपबन्धों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों तथा स्थायी आदेशों के रहते हुये संसद में बोलने की आजादी है। सांसदों को वे अधिकार प्राप्त हैं जो 26.01.1950 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त थे।

इन प्रावधानों को जो विशेषाधिकार से सम्बन्ध रखते हैं, हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई साधारण व्यक्ति कुछ अपमानजनक बात करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, किन्तु संसद सदस्य जब सदन में बोलता है तो उसे अन्मुक्ति प्राप्त है। उसके विरुद्ध इस आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती कि उसका भाषण अपमानजनक या मानहानिकारक था। सदस्य द्वारा संसद में कही गई बात के लिये उसकी आलोचना करना या उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना भी विशेषाधिकार का उल्लंघन है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1958 के निर्णय दिनांक 12.12.1998 में जो एम एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा के केस में दिया है (1958 AIR 395) साधारण नागरिक की अभिव्यक्ति के अधिकार तथा सांसद के विशेषाधिकार में भेद किया है। यह केस सर्चलाईट केस के नाम से प्रसिद्ध है। पटना से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 'सर्च लाईट' के सम्पादक को बिहार विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष कारण बताते के लिये कहा गया था कि उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के विशेषाधिकार के हनन के लिये कार्यवाही क्यों न की जावे? (सांसदों पर अनुच्छेद 105 व विधायकों पर अनुच्छेद 194(3) लागू होता है)।

लेखक का मत है कि जहां तक विशेषाधिकार के मामलों का संबंध है, सर्चलाईट के केस का निर्णय आज भी अन्तिम निर्णय है।

गत सदन का शीतकालीन सत्र बहुत ही हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हल्ला बोला। सदन की मर्यादा और वाणी की विनम्रता को ताक में रख दिया। हंगामे से प्रारम्भ हुआ सत्र हंगामे के साथ ही खत्म हो गया। दिनांक 25 नवम्बर को अग्रणी मामले में चर्चा की मांग पर हंगामा हुआ और इसी हंगामे से सत्र प्रारम्भ हुआ। हंगामे में ही बाबा साहेब आम्बेडकर के मान-अपमान में ही सत्र की समाप्ति हुई। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के समापन पर कहा कि संसद की गरिमा और मर्यादा बनाये रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद के किसी भी द्वार पर धरना-प्रदर्शन करना उचित नहीं है। यदि इसका उल्लंघन होता है तो संसद को अपनी मर्यादा और गरिमा बनाये रखने के लिये जरूरी कार्यवाही करने का अधिकार है। अध्यक्ष जी के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि संसद की मर्यादा और गरिमा बनाये रखने के लिये, मर्यादा भंग करने और गरिमा नष्ट करने वाले सांसदों के विरुद्ध कार्यवाही कर उन्हें दण्डित करने का अधिकार अध्यक्ष को अर्थात् सदन को प्राप्त है।

सदन के इतिहास में शायद इतना हंगामा कभी नहीं देखा गया। लोगों ने सदन की गरिमा को तातार होते टीवी पर देखा। घटनाओं का उल्लेख विशेषरूप से किया गया है। एक घटना का उल्लेख विशेषरूप से किया गया है। एक घटना गृहमंत्री अमित शाह के कथन को लेकर है, जिसके द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर का उन्होंने अपमान किया है, ऐसा आरोप कांग्रेस से लगाया है। दूसरी घटना है उसमें आरोप है कि विपक्ष के लीडर राहुल गांधी ने संसद सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की की। एक ओर भाजपा सांसदों ने अनुराग ठाकुर की अगुवाई में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग पर प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अगुवाई में विपक्ष ने अमित शाह गृहमंत्री से इस्तीफे व माफी की मांग की और प्रदर्शन किया।

संसद परिसर में धक्का-मुक्की की घटना हुई। आरोप है कि राहुल गांधी ने भाजपा के सांसद मुकेश राजपूत व प्रताप सारंगी को धक्का दिया, उन्हें चोटें आईं और सांसद को घमकी दी। इसकी एकआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस ने भी भाजपा के सदस्यों के विरुद्ध एकआईआर दर्ज कराई है। देश में जगह जगह कांग्रेस ने इनके विरुद्ध प्रदर्शन किये।

यह माना जा रहा है कि हंगामों के कारण पूरे सत्र में राजसभा का 40.03 प्रतिशत व लोकसभा का 57.08 प्रतिशत ही उपस्थिता रही। विधायी कामकाज बहुत कम हुआ। राज्यसभा के अध्यक्ष श्री जगदीप धनकड़ ने कहा कि यह कठ संसद परेशान करने वाला है कि सत्र में काम काज बहुत कम हुआ। निरन्तर व्यवधान जनता के भरोसे को घटा रहा है।

संविधान ने लोकसभा में अध्यक्ष को विशेषाधिकार के हनन पर कार्यवाही करने का अधिकार दिया है। संविधान के अनुच्छेद 105 में यह व्यवस्था है कि संसद में या उसकी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा की गई किसी बात या प्रकाशन के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। संसद सदस्य को विशेषाधिकार प्राप्त है। उन्हें वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो समय समय पर विधि द्वारा परिमितकित किये गये हैं और तब तक यह नहीं होता, वही होगा जो संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन को था।

वस्तुतः सांसदों के लिये विशेषाधिकार का मुद्दा इंग्लैंड से प्रारम्भ हुआ ताकि सांसदों को बादशाह द्वारा उपीडित होने से बचाया जा सके। भारत में भी स्थिति यही है। किसी सांसद को उपीडित करना अत्याचक भर्ती परीक्षा में प्रवेश करने के लिये उसके विरुद्ध कोई कदम उठाना संसदीय विशेषाधिकार का हनन माना गया है। सर्च लाईट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 105 के अधीन सदस्यों को बोलने की आजादी दी है। उनके विरुद्ध कोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं होगी। अपने संसदीय कर्तव्यों की पालना में सदस्यों द्वारा कही गई बात की जांच-पड़ताल को सदस्यों के अधिकार में गम्भीर हस्तक्षेप माना जावेगा। सदस्य के सभा (सदन) में दिये गये भाषण से न्यायालय की अवमानना भी हो तो भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगी। अनुच्छेद 122 न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है।

दिनांक 30.05.1997 को बिहार विधानसभा में बहस हो रही थी, उस समय एक बुजुर्ग सदस्य एम पी एन सिंह ने भाषण दिया। उसने मुख्यमंत्री एस के सिन्हा की शासन की कटु आलोचना की। अध्यक्ष ने आपत्तिजनक अंश को निकालने का आदेश दिया। इस प्रकरण के औचित्य की जांच के हेतु विशेषाधिकार समिति को यह मामला भेजा गया। समिति ने कार्यवाही को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध माना और अनुच्छेद 21 के तहत भी अवैध माना है। प्रतिवादी ने अनुच्छेद 194(3) का सहारा लिया (यह प्रावधान विधायकों पर लागू है और अनुच्छेद 105 के समान है जो सांसदों पर लागू)। हटाया गया भाग प्रकाशन का अधिकृत भाग नहीं बना था। अतः यह विधानसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन था।

हमारे सामने सदन की कार्यवाही के सन्दर्भ में दो घटनायें प्रमुख हैं। एक घटना संविधान निर्माता डा. बाबा साहेब आम्बेडकर पर केन्द्र के गृहमंत्री अमितशाह के सदन में दिये बयान के विषय पर है कि उन्होंने आम्बेडकर का अपमान किया है और कांग्रेस की मांग है कि वे माफी मांगे तथा इस्तीफा दें। यह विवाद निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 105 से सम्बन्ध रखता है और विशेषाधिकार का है। यहाँ भी स्थिति साफ नहीं है कि गृहमंत्री ने जो बाबा साहेब आम्बेडकर के सम्बन्ध में कहा वह वास्तव में अपमानकारक था या उन्होंने यह कहा था कि कांग्रेस ने हेमशा बाबा साहेब का अपमान किया है, उन्हें इस्तीफा देने को विवश किया, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया तथा उन्हें चुनाव में हराया। किसी ने 15 सेकण्ड की प्रक्रिया सोशल मीडिया पर लोड की है। यह आरोप है कि जो कुछ डा. आम्बेडकर के लिये कहा है वह अशोभनीय व अपमानजनक है, जबकि भाजपा का कथन है वह भाषण के विषय से भिन्न है। कुछ भी हो, गृहमंत्री अमित शाह ने जो भी कहा उसके लिये उन्हें विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के तहत प्राप्त है और इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इस प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिये और संसद अध्यक्ष जी ही इस संबंध में अनुच्छेद 105 की प्रक्रिया के अनुसार निर्णय करें। अन्य किसी संस्था अथवा व्यक्ति को कोई एक्शन लेने का अधिकार नहीं है और वे सब सर्च लाईट केस की नज्दी की रोशनी में, यह केस अनुच्छेद 105 के तहत विशेषाधिकार हनन माना जा सकता है। जहाँ तक धक्का-मुक्की वाला मामला है, यह संसद की कार्यवाही के दौरान नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। केमरे के फुटेज की मांग दिल्ली पुलिस ने संसद अध्यक्ष जी से की है। गवाहों के बयान लिये जा रहे हैं। केस की जांच कानूननुसार की जा रही है। यहाँ तक कि राहुलजी को भी सीन क्रियेट करने हेतु बुलाया है। चूंकि पुलिस जांच कर रही है, कोर्ट का मामला है अतः गुण दोष पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। हाँ, इस पर भी विचार करना चाहिये कि क्या यह प्रसंग भी विशेषाधिकार का हो सकता है? श्रमिक व मालिक के सम्बन्ध के केस मिलते हैं जहाँ घर से ड्यूटी पर जाने के समय यदि एकसीडेप्ट होता है तो श्रमिक को ऑन ड्यूटी माना जाता है। कहा जाता है राहुल जी संसद में भाग लेने गये थे और संसद के प्रयोग में घटना घटित हुई। यहाँ लिखना उचित होगा कि कांग्रेस व भाजपा दोनों ही ने एकआईआर दर्ज कराई है और घटना के विषय को कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का माना है। अतः कोर्ट में कार्यवाही होगी।

संविधान की जय हो, जय हो, जय हो।
-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान: स्कूली शिक्षा में लड़खड़ाती अंग्रेजी



राजेंद्र जोशी

सरकार किसी भी दल की हो वह आमजन के कल्याण के लिए कार्य योजनाएँ बनाती है, उसे लागू करती है व उसके पीछे भावना यही रहती होगी की प्रदेश की जनता को इस योजना का भरपूर लाभ मिलेगा। परंतु सरकार में बैठे हुए नौकरशाह और सरकार चलाने वाले शहशाह यह नहीं देखते कि किसी भी योजना को प्रारंभ करने से पहले उस

पर प्लानिंग की जानी चाहिए, जब प्लानिंग पूरी हो जाए, व्यवस्थित योजना बन जाए, उसके बाद ही क्रियान्वयन होना चाहिए व्यक्ति और देश-प्रदेश के भविष्य के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छी शिक्षा ही विकसित राष्ट्र बनाती है। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह दूध है जो जितना ज्यादा पीएगा उतना ज्यादा दहाइगा।

राजस्थान की बात करें तो शिक्षा विभाग पिछले अनेक वर्षों से प्रयोगशाला बनकर रह गया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था केवल नौकरशाहों के भरोसे काम कर रही है। शिक्षा में शिक्षाविदों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है, राजस्थान में शिक्षाविदों को शिक्षा विभाग में शायद पृष्ठना उचित नहीं लगता। इसलिए यहाँ शिक्षा विभाग की प्रत्येक योजना धरायाही हो जाती है। पिछली राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूले खोली, भावना यही थी कि राजस्थान के बच्चे अंग्रेजी विषय में कमजोर रहते हैं, उन्हें

अंग्रेजी विषय पढ़ाकर राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बराबरी पर लाया जाए। परंतु आधी-अधूरी योजना के तहत खोली गई स्कूलें आज अध्यापकों की बाट जो रही हैं। कहीं समझदार अभिभावक अपने बच्चों को भरती करने के बाद वापस निकाल रहे हैं, तो कहीं-कहीं पर इन स्कूलों में अभिभावक बच्चों को भरती करने से किनारा कर रहे हैं।

जब से अंधाधुंध महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोलने की घोषणाएँ की गईं। घोषणा मात्र से ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अच्छी खासी चल रही सामान्य स्कूलें परिवर्तित हो गईं। जब से यह इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली इनमें हिन्दी वाले अध्यापकों को लगा दिया गया। और इन स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हो पाए। उचित यह होता कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ करने से पहले अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों का पैन्ल तैयार किया जाता। उस पैन्ल में से शिक्षकों का साक्षात्कार लिया जाता,

जब समुचित मात्रा में अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक उपलब्ध हो जाते तो उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के अनुसार ही स्कूलें खोली जाती। पिछली सरकार ने बगैर सोच-विचार के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें में खोल दी। आधी-अधूरी कार्य योजना के कारण अब स्थिति भयावह हो गई। वर्तमान सरकार भी इन स्कूलों से प्यार नहीं कर रही, स्कूलों से प्यार नहीं करने का मतलब है कि उन स्कूलों में अध्यापन विद्यार्थी और अभिभावक भविष्य को लेकर चिंतित है। वर्तमान समय में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अध्ययनरत छात्र ना हिन्दी पढ़ रहे हैं और ना ही अंग्रेजी। स्कूल वेग भी नहीं खुलता।

3737 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में रूपांतरित किया गया था, आज स्थिति यह है कि आरंभ मात्र में अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें 79 हजार से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया। संभवत यह 79 हजार शिक्षक

अंग्रेजी पढ़ाने में परिरपन्न होंगे। परंतु इनका चयन अभी तक नहीं किया गया ऐसे में इनमें अध्यापन बच्चे ना तो अंग्रेजी में पारंगत होंगे और ना हिन्दी में पारंगत होंगे। इसलिए सरकारी को चाहिए कि केवल घोषणाओं से वाह-वाह लूटने और नंबर बढ़ाने कि बजाय क्रियान्वयन की गुणवत्तापूर्ण हो।

मजबूत कार्य योजना बनाने के बाद समुचित मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराने की क्षमता अगर सरकार में हो तभी योजना लागू की जानी चाहिए। अगर सरकार पूरी तरह संसाधनों के साथ क्षमता के साथ योजना लागू करेगी तो आने वाली सरकारों भी उस योजना को बंद नहीं कर पाएगी। अन्यथा बंद करने के लिए उनके पास यह विषय अब जाता है कि यह आधी अधूरी योजना है। वर्तमान सरकार को चाहिए कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को गुणवत्ता के आधार पर देखकर छात्र-शिक्षक अनुपात में इन्हें ठीक से चलाने का प्रयास करें।

-राजेंद्र जोशी,
शिक्षाविद-साहित्यकार

जैसलमेर में सैलानियों की आवक से होटल व रिसोर्ट हाउसफुल

जैसलमेर, (नि.सं.)। 55वीं जीएसटी परिषद की 21 दिसम्बर को हुई बैठक की महीनों से पूरे भारत में चर्चा से इस बार उम्मीद से तीन गुना देशी सैलानियों की आवक हो रही है। होटल व्यवसायियों, रेस्टोरेंट, चाट ठेलों, श्री व्हीलर वालों के चेहरों पर खुशी छाई हुई है। प्रशासन द्वारा जीएसटी परिषद की बैठक तक सभी व्यवस्था सिंगापुर शहर की भांति थी, वर्तमान में वही ढाक के तीन पात वाली स्थिति है। हालात यह है कि सैलानियों को आसानी से होटलों में जगह तक नहीं मिल रही है। बुधवार की रात जैसलमेर शहर हाउसफुल नजर आया। जब शहर का भ्रमण किया तो कई जगहों पर सैलानी सड़कों के किनारे खड़े वाहनों में सोते नजर आए।

गांधीनगर गुजरात से आए गोकुल भाई अपने परिवारों व रिश्तेदारों के साथ बस में जैसलमेर घूमने आए हुए थे। उनके साथ 45 यात्री थे। करीब 30 से 40 होटलों में तलाश करने पर भी जगह नहीं मिली। ऐसे में उन्होंने बस में ही रात बिताने का निर्णय लिया और इस सर्द मौसम में ठिठुरते रहे। यह सिर्फ गोकुल भाई के साथ ही नहीं, कई



जैसलमेर में किला पार्किंग में सैलानियों की गाड़ियां।

सैलानियों के साथ हुआ, जब वे शहर पहुंचे तो उन्हें जगह नहीं मिली और आखिर सड़क किनारे गाड़ियों को पार्क कर वहीं पर खाना बनाया और खाने के बाद रात में ही वापस यहां से निकल गए। एक अनुमान के मुताबिक शहर में इन दिनों रोजाना 8 हजार से ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं। इसके अलावा ट्रेन,

प्लाइट व बसों से आने वाले सैलानी अलग है।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए कड़े प्रबंध कर रखे हैं। सोनार दुर्ग जाने व आने के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। गडौसर चौराहे की तरफ से आने

वाली गाड़ियों को ऑफिसर चौराहा से घूमकर देवचंद्रेश्वर मंदिर के सामने से रिंग रोड स्थित पार्किंग पर जाने की व्यवस्था की गई है। वहीं वहां से वापस ब्यास निकलने के लिए दिब्बा बाइस होकर नगर परिषद के पास से मुख्य सड़क से जोड़ा गया है। वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण कई जगहों पर व्यवस्था

- एक अनुमान के मुताबिक शहर में इन दिनों रोजाना आठ हजार से ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं।
- कई पर्यटकों ने बसों में ही रात बिताने का निर्णय लिया और इस सर्द मौसम में ठिठुरते रहे।

गडबड़ा रही है पार्किंग स्थल फुल है। पर्यटन नगरी जैसलमेर में गाड़ियों की पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन आ रहे हैं, लेकिन इन वाहनों को खड़ा करने के लिए जिला प्रशासन व नगर परिषद ने कोई व्यवस्था नहीं की है। इस वजह से सैलानियों को सड़कों के किनारे ही वाहन खड़े करने पड़ रहे हैं। यह समस्या पर्यटन सीजन में हर साल होती है, लेकिन इस ओर न तो नगरपरिषद ध्यान दे रही है और न ही जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है।

‘अब अभ्यर्थी गर्म कपड़े व जूते पहनकर दे सकेंगे परीक्षा’

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सर्दी के तीखे तेवर शीतलहर के मद्देनजर वर्ष 2024 की आखिरी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को सर्दी से बचाने के लिए एम केपडे एवं जूते पहनकर परीक्षा देने की राहट दी है। वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। पूर्व की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के जूते, दुपट्टा सहित अन्य सामान केंद्र के बाहर ही उतरवा लिया जाता था।

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से आगामी 28 से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रदेशभर के करीब 4 लाख 70 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रवेश और शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके मद्देनजर आयोग की सुबह की पारी में होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों को खासी परेशानी होती। पहली पारी का पेपर सुबह नौ बजे शुरू

- वर्ष 2024 की आखिरी भर्ती परीक्षा में आर.पी.एस.सी. ने सर्दी को देखते हुए राहट दी
- वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू होगी

होगा, लेकिन अभ्यर्थियों को सुबह साढ़ बजे से ही परीक्षा सेंटर्स पर पहुंचना होगा है। आठ बजे बाद परीक्षा केंद्र में एंटी बंद कर दी जाएगी। सुबह के समय ही सबसे अधिक परेशानी होती है। ऐसे में आयोग ने परीक्षा नियमों में अभ्यर्थियों को शिथिलता प्रदान की है। कृपाण लेकर जा सकेंगे सिख धर्म के अभ्यर्थी - आयोग सचिव मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को सर्दी के मौसम को देखते हुए राहट प्रदान की गई है। परीक्षा में सिख धर्म के अभ्यर्थी

कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। फ्रिजिंग के दौरान इन प्रतीक के अतिरिक्त अन्य कोई संदेहास्पद उपकरण या वस्तु मिलने पर उसे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

सचिव मेहता ने बताया कि परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी, जिसमें 28 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा सुबह 9:30 से 12 बजे, हिन्दी दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे, 29 दिसंबर को जोके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी सुबह 9:30 से 11:30 बजे, साइंस दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे, 30 दिसंबर को गणित सुबह 9:30 से 12 बजे, संस्कृत दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे और 31 दिसंबर को इंग्लिश सुबह 9:30 से 12 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

सरकारी स्कूलों में नामांकन घटने पर 40 प्रिंसिपल तलब

प्रिंसिपलों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया

बीकानेर, (नि.सं.)। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन कम होने और आस-पास रहने वाले बच्चों को स्कूल से नहीं जोड़ने पर शिक्षा विभाग ने 40 प्रिंसिपल को नोटिस देते हुए निदेशालय में तलब किया है। प्रिंसिपल को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 40 प्रिंसिपल को 17 सीसीए के तहत नोटिस दिया था। नोटिस में नामांकन कम होने के साथ ही आस-पास रहने वाले बच्चों को स्कूल से नहीं जोड़ने के आरोप लगाए हैं। अलग-अलग जिलों के 40 प्रिंसिपल को नोटिस के बाद अब व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है। इस दौरान प्रिंसिपल के जवाब संतोषजनक नहीं हुए तो कार्रवाई की जाएगी।

आमतौर पर स्कूल में टीचर्स के पद रिक्त होने, गार्जनों के ट्रांसफर होने या फिर किसी अन्य उचित कारण के नामांकन कम होता तो कार्रवाई नहीं होती। इसके विपरित अगर रिजल्ट खराब होने की स्थिति में छात्र-छात्राओं की संख्या कम होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये सभी प्रिंसिपल मुकानेर को ही बीकानेर आएंगे और यहाँ निदेशक के सामने पेश होंगे। जिन जिलों में नामांकन कम होने के कारण सत्र ही सीसीए में नोटिस दिए गए हैं, उनमें बीकानेर, बांसवाड़ा, कोटा, भीलवाड़ा, जैसलमेर, नागौर, राजसमंद, प्राणगढ़, बूंदी, चूरू, जालौर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक, सिरौही और हनुमानगढ़ के स्कूल प्रिंसिपल शामिल हैं।

- संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है

राशिफल शुक्रवार 27 दिसम्बर, 2024



पंडित अनिल शर्मा

पौष मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2081, विशाखा नक्षत्र रात्रि 8:29 तक, धृति योग रात्रि 10:37 तक, कौलव करण दिन 1:35 तक, चन्द्रमा दिन 1:57 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्राह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरू-वृष, शुक्र-मकर, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज राजयोग रात्रि 8:29 से रात्रि 2:27 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 8:29 से सूर्योदय तक है। महापात योग दिन 2:35 से रात्रि 9:35 तक है। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:36 तक, लाभ-अमृत 8:36 से 11:10 तक, शुभ 12:28 से 1:45 तक, चर 4:20 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:18, सूर्यास्त 5:37

मेघ परिवार में आपसी सहयोग-सम्बन्ध बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। दिन के मध्यह्न पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

वृष मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिवसों में सुधार होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मिथुन व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

कर्क परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

सिंह व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

कन्या आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बने लगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

तुला मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बने लगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

वृश्चिक घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। दिन के मध्यह्न पश्चात वर्तमान में चल परेशानियां दूर होने लगेगी।

धनु आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। दिन के मध्यह्न पश्चात अनावश्यक धन खर्च होगा। मन में अस्तोष बना रहेगा।

मकर व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों शोभानुसार बने लगे। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

कुंभ घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समाहोद सम्यन हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्यह्न पश्चात अटक हुए कार्य बने लगे। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

राजस्थान सरकार साहिबजादों के नाम छात्रावास के लिए भूमि देगी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा कार्यालय में शबद कीर्तन कार्यक्रम में यह घोषणा की

जयपुर, 26 दिसंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर बाल दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में शबद कीर्तन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार साहिबजादों के नाम पर छात्रावास के लिए सिख समाज को जमीन का आवंटन करेगी। उन्होंने कहा कि सिख धर्म के दसवें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने मातृ भूमि के लिए,

मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा का संकल्प है कि सिख धर्म के बलिदान को देश की युवा पीढ़ी को बताया जाये और उनके आदर्शों पर चलने के लिये प्रेरित किया जाये।



वीर बाल दिवस पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित शबद कीर्तन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने साहिबजादों के नाम पर छात्रावास के लिए सिख समाज को जमीन का आवंटन करने की घोषणा की।

अपनी संस्कृति और विचारों के लिए दृढ़ता के साथ अपना जीवन बलिदान कर दिया, उनको मेरा कोटि-कोटि नमन। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने धर्म की रक्षा और सत्य के लिए अल्प आयु में ही अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, यह हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अत्याचारी मुगल शासकों ने उन्हें झुकाने और उनका काम परिवर्तन करवाने के लिए अनेक अत्याचार किए,

लेकिन राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए साहिबजादों ने हंसते हुए मृत्यु को गले लगा लिया। साहिबजादों की शहादत हमें बताती है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उम्र नहीं, दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि ऐसी माता को भी नमन, जिसने अपने बच्चों में राष्ट्र और धर्म के लिए ऐसे संस्कार और शिक्षा दी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि सिख धर्म के इन साहिबजादों के बलिदान को देश

की युवा पीढ़ी को बताया जाए और देश के युवा वर्ग को इनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साहिबजादों के शहादत को राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित कर उनकी स्मृति को चिर स्थाई बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मुगलों ने इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए साहिबजादों को यातनाएं दीं, लेकिन उन्होंने सिर झुकाने की बजाय, अपने प्राण न्यौछावर करना

उचित समझा। राठौड़ ने कहा कि आज समय के अनुसार हमें जागृत रहने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम समिति के प्रदेश संयोजक प्रणवेन्द्र शर्मा ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यालय के साथ, प्रदेशभर में वीर बाल दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भाजपा मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सी आर चौधरी सहित, भाजपा के अनेक गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी का गुजारा भत्ता तय किया

जयपुर, 26 दिसंबर। पारिवारिक न्यायालय क्रम-1 महानगर प्रथम ने पारिवारिक विवाद से जुड़े एक मामले में कहा है कि पत्नी का भरण-पोषण करना पति का विधिक व नैतिक दायित्व है। न्यायालय ने अप्रार्थी पति को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थिका पत्नी को हर महीने भरण-पोषण के लिये 15 हजार रूपए भुगतान करे। न्यायालय ने कहा कि अप्रार्थी पति की ओर से अपनी आय के संबंध में दिए जवाब व स्टेटमेंट में गंभीर विरोधाभास है। उसने आय के संबंध में तथ्यों को छिपाया है। अप्रार्थी का यह कहना, कि वह अपने पिता के साथ रंगाई काम से तीन से चार हजार रूपए कमाता है, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। मामले

पति ने आय के तथ्यों को छिपाया। न्यायालय ने 40 हजार आय मान कर 15 हजार रूपए गुजारा भत्ता तय किया।

के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अप्रार्थी की आय 40 हजार रूपए माना जाना सही है। पीठासीन अधिकारी विवेक कुमार जसूजा ने यह आदेश पत्नी के प्रार्थना पत्र पर दिए।

मामले के अनुसार, प्रार्थिका का निकाह 14 दिसंबर 2012 को अप्रार्थी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष का व्यवहार प्रार्थिका से अच्छा नहीं रहा और वे उसे देहेज के लिए शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने लगे। उन्होंने उससे तीन लाख रूपए नगद व एक कार की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। प्रार्थिका बेरोजगार है और पति विदेश में काम कर 80 हजार रूपए कमाता है। ऐसे में उसे भरण पोषण भत्ता दिलाया जाए।

भाजपा महिला मोर्चा का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन

नयी दिल्ली, 26 दिसम्बर। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महिला मोर्चा ने गुजरात को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को छलने और महिला सम्मान के नाम पर झूठी तसल्ली देने का आरोप लगाया। मोर्चा की अध्यक्ष ऋचा

उन्होंने केजरीवाल पर महिलाओं को छलने का आरोप लगाया।

पांडेय मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष योगिता सिंह, मोर्चा की प्रभारी श्याम बाला, प्रदेश प्रवक्ता एवं निगम पाषंद शिखा राय, मोर्चा महासचिव प्रियल भाद्राज, प्रदेश उपाध्यक्ष शिखा माथुर, संगीता चौधरी, रेखा सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।

कांग्रेस माकन पर 24 घंटे में कार्यवाही करे- आतिशी

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा वे इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस को निकालने की मांग करेंगी। अजय माकन ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश का फ्रॉड किंग, यानी सबसे बड़ा धोखेबाज बताया। माकन ने कहा कि अगर केजरीवाल को एक शब्द में परिभाषित करना हो, तो वो शब्द 'फर्जीवाला' होगा। माकन ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए आप के साथ गठबंधन में आना कांग्रेस की भूल थी, जिसे अब सुधारा जाना चाहिए। केजरीवाल जैसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी कोई विचारधारा और कोई सोच नहीं है। वे अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

15 लाख रूपए सालाना... गत वर्ष में तीन सर्वोच्च स्तर के सेना...

इस प्रावधान से सरकार मध्यम वर्ग को ज्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, जो हाई टैक्स और बढ़ती महंगाई से त्रस्त है।

आर.एस.एस... सिविलिटाइजेशनल जस्टिस की इस तलाश को संबंधित करने का उचित समय आ गया है। संपादकीय में आगे कहा गया है: "बाबासाहेब अंबेडकर ने जाति-आधारित भेदभाव को जड़ से निपटने के लिये संवैधानिक उपचार उपलब्ध कराये थे, ताकि इसे उखाड़ फेंका जाए।

वजह से शहरी क्षेत्रों में लंग्ररी आईटम्स पर खर्च कम हुआ है, जिनमें साबुन, शैम्पू और ऑटो मोबाइल प्रमुख हैं। मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने से आर्थिक सक्रियता बढ़ सकती है। सरकार पर इस वर्ग का दबाव है। वह हाई टैक्स और कम वेतन वृद्धि तथा बढ़ती महंगाई से त्रस्त है।

आर.एस.एस... सिविलिटाइजेशनल जस्टिस की इस तलाश को संबंधित करने का उचित समय आ गया है। संपादकीय में आगे कहा गया है: "बाबासाहेब अंबेडकर ने जाति-आधारित भेदभाव को जड़ से निपटने के लिये संवैधानिक उपचार उपलब्ध कराये थे, ताकि इसे उखाड़ फेंका जाए।

'बेलगावी बैठक में कांग्रेस के भविष्य का एजेंडा तय होगा'

पायलट व शिवकुमार ने कार्यसमिति की बैठक का महत्व रेखांकित किया

महात्मा गांधी नगर, बेलगावी 26 दिसंबर। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और सचिन पायलट ने गुजरात को यहां कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के दौरान पार्टी के भविष्य की रूपरेखा तय की। यह बैठक महात्मा गांधी द्वारा 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने की शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित की गयी है।

इस मौके पर शिवकुमार ने अपने संबोधन में देश को एकजुट करने और राजनीतिक सत्ता की परवाह किए बिना समाज के सभी वर्गों की सेवा करने में कांग्रेस पार्टी की दीर्घकालिक भूमिका पर जोर दिया।

सहित कि पार्टी को विरासत राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में गहराई से, यहां तक कि प्रतिकूल समय में भी निहित है।

इस अवसर पर राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बैठक को संबोधित करते हुए शताब्दी के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया

महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगावी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन की शताब्दी के उपलक्ष्य में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक यहां आयोजित की गई है।

और इसे कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा, यह बैठक हमारी पार्टी के भविष्य के एजेंडे के लिए आधार तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले महीने कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि वह राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। उन्होंने आने वाले वर्षों में पार्टी के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्धारित करने में बैठक के महत्व को भी रेखांकित किया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आज दोपहर 15 बजे शुरू हुई, जो 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले महात्मा गांधी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। ऐतिहासिक महत्व रखने

वाले इस स्थल का नाम बदलकर इस अवसर के सम्मान में महात्मा गांधी नवगमन रखा गया है।

बैठक में इंडिया समूह को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कांग्रेस नेतृत्व ने आने वाले महीनों में गठबंधन को मजबूत करने और राजनीतिक विरोधियों का मुकाबला करने की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की।

कांग्रेस ने कार्यसमिति की बैठक के अलावा 27 दिसंबर को बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम 'जय बापू-जय भीम-जय संविधान' की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है।

राजस्थान भीषण ठंड की चपेट में

दिल्ली-एन.सी.आर. में 3 दिन तेज बारिश का चलो अलर्ट।

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में तीन दिनों तक बारिश का चलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, एनसीआर के लोगों को 27 और 28 दिसंबर को तेज बारिश और तेज हवा का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को यहीं मिलेगी। बारिश के बाद, लोगों को घने कोहरे और तापमान में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक, 27 और 28 दिसंबर को तुफान के साथ तेज बारिश हो सकती है।

राजस्थान के अधिकतर इलाके भीषण ठंड की चपेट में हैं और मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार से राज्य में कई जगह बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया है। मौसम केन्द्र, जयपुर के अनुसार, बीते 24 घंटे में राज्य में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। इस दौरान कहीं-कहीं घने से अति घना कोहरा छाया रहा और पश्चिमी राजस्थान में 'शीत दिवस' दर्ज किया गया। 27 दिसंबर को कुछ जगहों पर बारिश और

ओलावृष्टि का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, 28 दिसंबर को कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने और शेष अधिकांश भाग में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि 29 दिसंबर से मौसम शुष्क रहेगा तथा कहीं-कहीं घना कोहरा छाया रहेगा व तापमान में गिरावट हो सकती है।

कश्मीर भयंकर शीतलहर की चपेट में है और न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। शुक्रवार और शनिवार को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है, क्योंकि क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होने की संभावना है। कश्मीर घाटी में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे घाटी में ठंड का प्रकोप जारी रहा। पारे में गिरावट के कारण, विभिन्न क्षेत्रों में कई जलाशयों और जलाशयों में पानी जम गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 29, 30 और 31 दिसंबर को मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा।

डॉ. मनमोहन सिंह का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गए हैं। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से दिल्ली पहुंचे। प्रियंका गांधी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एम्स पहुंचे।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। वह संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य थे। मनमोहन सिंह ने 21 मार्च, 1998 से 21 मई 2004 तक सदन में नैतिक प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली थी। इसी साल अप्रैल महीने में राज्यसभा से रिटायर हुए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर गहरे शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉ. मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। साधारण परिवार से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न

सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। देश के चौदहवें प्रधानमंत्री डॉ. सिंह अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। डॉ. सिंह को कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया। इनमें से नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड, वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरोपीय मनी अवार्ड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम मिथ पुरस्कार, कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार शामिल हैं। डॉ. सिंह को जापानी निहोने किजई शिम्बुन जा अन्य संघों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। डॉ. सिंह को कैब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधियां प्रदान की गईं।

जोधपुर, 26 दिसम्बर (कास)। नए साल में राजस्थान हाईकोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिलने का रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने राजस्थान के तीन न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है। इन अधिकारियों में रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार माथुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर चंद्रशेखर शर्मा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने तीनों नामों की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है। केन्द्र से हरी झंडी मिलने के बाद, राष्ट्रपति इन तीनों के नियुक्ति वारंट जारी करेंगे। तीनों 1992 बैच के न्यायिक अधिकारी हैं। ज्ञातव्य है कि राजस्थान हाईकोर्ट में 50 जजों की

राजस्थान हाई कोर्ट को 3 नये जज मिलेंगे

सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर व चंद्र प्रकाश श्रीमाल के नाम की सिफारिश की।

स्वीकृत संख्या है। इस समय हाई कोर्ट में 32 न्यायाधीश नियुक्त हैं। इन तीन नए जजों के मिलने के बाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 35 हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी स्वीकृत संख्या से 15 न्यायाधीश कम रहेंगे। इसके अलावा, साल 2025 में पांच न्यायाधीश रिटायर भी हो जाएंगे। जनवरी माह में जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस मदन गोपाल व्यास, मई में जस्टिस वीरेंद्र कुमार, सितंबर में जस्टिस नरेन्द्र बड्डा और नवम्बर में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में, हाई कोर्ट में जजों की संख्या घटकर 30 हो रहने वाली है। हालांकि संभावना है कि नए साल में अधिवक्ता कौन से राजस्थान हाईकोर्ट को कुछ नए जज और मिल सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर व चंद्र प्रकाश श्रीमाल के नाम की सिफारिश की।

सी.डब्ल्यू.सी...

महाराष्ट्र चुनावों को लेकर अपनी चिन्ताएं सामने रखीं तथा कहा कि मतदान बढ़ कैसे गया था। इस बिन्दु का समापन करते हुये, उन्होंने कहा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है। लेकिन नेतृत्व, चुनाव प्रक्रिया पर तथा मतदान ई वी चयन के जरिये हो या मतपत्र के जरिये हो- पर पूरी तरह स्पष्ट विचार देने में असमर्थ रहा।

बोरवेल में गिरी मासूम चेतना को बाहर निकालने के प्रयास जारी

कोटपतली, (निर्स)। कोटपतली के ग्राम किरतपुरा की ढाणी बड़ियाली में सोमवार दोपहर करीब दो बजे बोरवेल में गिरी तीन वर्षीय मासूम बालिका चेतना पुत्री भूपेन्द्र चौधरी को करीब 80 घंटों का समय बीत जाने के बाद भी गुरुवार देर शाम तक नहीं निकाला जा सका। बच्ची की कोई मूवमेंट नहीं मिल रही है, जिससे परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। रेस्क्यू अभियान में बरती गई लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में स्थानीय प्रशासन के प्रति आक्रोश का माहौल भी देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि घटना वाले दिन ही प्लान ए के साथ प्लान बी के तहत पाइलिंग मशीन बुलाकर कार्य शुरू कर दिया जाता तो चेतना को शायद समय रहते बाहर निकाला जा सकता था। प्रशासन द्वारा प्लान ए के तहत देशी तरीके से प्रयास विफल रहने के बाद प्लान बी के तहत हरियाणा के गुरुग्राम से मंगवाई गई पाइलिंग मशीन ने गुरुवार सुबह तीन बजे तक करीब 155 फीट गहरा गड्ढा खोया, जिसके बाद गहराई में पत्थर आ जाने की वजह से करीब तीन घण्टे तक रेस्क्यू अभियान रूका रहा। बाद में पाइलिंग मशीन की बिट चेंज करके 160 फीट तक खुदाई की गई। एनडीआरएफ निरीक्षक योगेश मीणा ने बताया कि इसके बाद पाइलिंग मशीन को बदलकर करीब 170 फीट खुदाई की गई है। देर शाम तक खोदे गये गड्ढे में कैसिंग डाली जा रही थी। जिसके बाद इसमें रेत माईन्स की टीम को उतार कर करीब 20 फीट मैनुअल खुदाई बोरवेल के डैप्थ में की जाकर बच्ची को रेस्क्यू करने के प्रयास किये जायेंगे। बच्ची हमारे ऊपर हो इससे हम नीचे से



बोरवेल में गिरी बच्ची को बचाने के लिये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

बोरवेल में बच्ची तक सबसे सुरक्षित तरीके से पहुंच सकेंगे। फिलहाल जी शेष हुक के जरिये बच्ची को बोरवेल में अटकवाया हुआ है। बच्ची को रेस्क्यू करने के लिये दिल्ली से रेत माईन्स की टीम मोहम्मद इरशाद अंसारी के जाकर बच्ची को रेस्क्यू करने के प्रयास किये जायेंगे। बच्ची हमारे ऊपर हो इससे हम नीचे से

के सदस्यों ने बताया कि उत्तराखण्ड टनल हादसे में मजदूरों को बचाने के लिये विशेष तकनीक अपनाई थी। हम जमीन के अन्दर सुरंग से बोरवेल तक हॉरिजेंटल खुदाई करके बच्ची तक पहुंचेंगे। टीम के सदस्य स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर यहां पहुंचे हैं। चेतना को बोरवेल से बाहर निकालने में

बच्ची की कोई मूवमेंट नहीं मिल रही है, जिससे परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है

बच्ची को रेस्क्यू करने के लिये दिल्ली से रेत माईन्स की टीम पर पहुंची

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस सहित स्थानीय पुलिस प्रशासन के तमाम प्रयास अभी तक सफल साबित नहीं हुये हैं। वहीं दूसरी ओर चेतना की मां धोली देवी की बुधवार रात्रि तबीयत बिगड़ गई, जिसका घर पर ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सीएमएमसीओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत के नेतृत्व में उपचार प्रदान किया गया। दूसरी ओर ग्रामीणों में उजड़ रहे आक्रोश के बीच बुधवार रात्रि 12 बजे जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल भी मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं होम गार्ड के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर हालातों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने बच्ची के दादा हरसहाय चौधरी सहित परिजनों व ग्रामीणों से मुलाकात कर समझाइश की। प्लान बी में देरी पर मीडिया से बातचीत करते हुये उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां हालातों के अनुसार की जाती हैं। जिस दिन घटना हुई उसी दिन प्लान बी की तैयारी कर ली गई थी। मशीनों की मूवमेंट व आवागमन में देरी की वजह से सारा समय लगा है।

दुष्कर्म पीड़िता ने मृत बच्ची को जन्म दिया

डूंगरपुर, (निर्स)। डूंगरपुर में 13 साल की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मंगलवार रात प्री-मैच्योर डिलीवरी हुई। पीड़िता ने मृत बच्ची को जन्म दिया। इसके कुछ देर बाद ही नाबालिग की भी मौत हो गई। नाबालिग की मौत के बाद परिजन ने सदर थाने में एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया है। थानाधिकारी हर्दर सौदा ने बताया कि थाना क्षेत्र की रहने वाली 13 साल की रेप पीड़िता गर्भवती थी। मंगलवार शाम छह बजे पीड़िता के पेट में अचानक दर्द होने लगा। परिवार के लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे भर्ती कर लिया। रात करीब

आधे घंटे बाद नाबालिग मां ने भी दम तोड़ा, युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज

'परिजनों ने लोक लाज के भय से पहले दुष्कर्म को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं दी थी'

11 बजे नाबालिग ने आठ महीने की प्री-मैच्योर बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुई थी। वहीं, डिलीवरी के आधे

अवैध बजरी से भरे दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

निवाड़ा, (निर्स)। सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को रात्रि गश्त के दौरान सुनारा गांव के समीप अवैध बजरी परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों जब्त किया है। सदर थानाधिकारी जयमल सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेंद्रसिंह भाटी के निर्देशों एवं डीवाईएसपी मृत्युंजय मिश्रा के सुपरविजन में गुरुवार को रात्रि गश्त के दौरान अवैध बजरी परिवहन करते हुए सुनारा गांव के तालाब के पास अवैध बजरी के भरे हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. कोलाना एयरपोर्ट खण्ड झालावाड़

क्रमांक-948 दिनांक- 17.12.2024

निविदा सूचना संख्या 03/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय, की ओर से राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से (1) जिला झालावाड़ में राजकीय कोलाना हवाई पट्टी के अंतर्गत एवं हैंगर एवं अन्य इत्यादी कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के 'ए', 'ए', 'बी', 'सी' एवं 'डी' श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-गोवर्णमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाई निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। निविदा फॉर्म ऑन लाईन दिनांक 23.12.2024 से 13.01.2025 को सांय 6.00 बजे तक डाउनलोड किये जा सकेंगे। ऑन लाईन निविदाएं जमा करने की तिथि 23.12.2024 से 13.01.2025 को सांय 6.00 बजे तक रहेगी। वेब साईट पर विधेय प्रिड दिनांक 14.01.2025 को 6.00 पर खण्ड कार्यालय में खोली जायेगी।

अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. कोलाना एयरपोर्ट खण्ड झालावाड़

क्रमांक-अअ / सांघोर / 2024-25/2201 दिनांक- 18-12-2024

निविदा सूचना संख्या : 17 वर्ष 2024-25

NIB No.: PWD2425A3375

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से UCRV योजनाअंतर्गत डामर सड़क निर्माण कार्य MG नरगा योजना में विभिन्न इच्छुक श्रेणी सड़क निर्माण व एमएलए लैंड में डामरीकरण कार्य व अन्य सड़क मरम्मत कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग/रेवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में कार्य विनयी लागत राशि कर. 507.47 लाख है के लिए ईटेंडरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ऑनलाइन निविदा आवेदन डाउनलोड एवं अपलोड करने की तारीख 23 दिसम्बर 2024, 9:30 बजे से 11 जनवरी 2025, सांय 06:00 बजे तक निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट <http://dipr.rajasthan.gov.in> व <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाइन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। कार्यवार यू.पी.एम संख्या निम्नानुसार है।

UBN No. -1. UBNP/2425WSOB/12392, 2. UBNP/2425WSOB/12393, 3. UBNP/2425WSOB/12395, 4. UBNP/2425WSOB/12397, 5. UBNP/2425WSOB/12398, 6. UBNP/2425WSOB/12400, 7. UBNP/2425WSOB/12401, 8. UBNP/2425WSOB/12402, 9. UBNP/2425WSOB/12404, 10. UBNP/2425WSOB/12406

(ओम प्रकाश) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सांघोर

DIPRC/13457/2024

राजस्थान सरकार निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ. ख.अ. नीलामी / नीलामी (ML Bajr XX)/2024/ई-09533

ई-नीलामी विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अध्यान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय - के तहत विभाग के अध्याय खनिज बजरी के खननपट्टों के आवंटन के लिए निम्नांकित प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खुली बोली आमंत्रित की जाती है। सोक्षाव विवरण इस प्रकार है:-

जिला	तहसील	राजस्व गांव	प्लॉटों की संख्या
टोंक	पीपलू	डोडवाडी	1
		डोडवाडी, मुंडिया	1
		वशीपूरा, लाक	1
		सतवाड़ा	2
दूनी	देवली	सतवाड़ा, संथली	1
		बंथली	4
योग	बंथली, विजयगढ़	सतवाड़ा	1
			11

विशेष नोट:- 1. प्लॉटों का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण, ई-ऑप्शन की शर्त विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदाता कंपनी MSTC Ltd की वेबसाईट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध है।

DIPRC/13415/2024 (भगवती प्रसाद) IAS निदेशक

राजस्थान सरकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि (रसायन)

राजकीय कौटनाशी अन्नोष परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुर, जयपुर-302018

Email gprtdurgapura@gmail.com & jdgrtl.agri@rajasthan.gov.in

क्रमांक-एफ.अ.2/33/र/नि. रसा./ओपीआरटीए/आरकेबीआई/3. क. LCMS/2024-25/638 दिनांक- 18/12/2024

e-Tender Notice

The Joint Director Agriculture (Chemistry) GPRTL, Durgapura, Jaipur Invites following online bid from the eligible bidder:-

Name of work	Total estimated cost	Bid Start Date	Bid Submission End date & time
Supply and installation of LCMS-MS with related accessories from Manufacturers or their Authorized Distributors/Dealers for the use in GPRTL, Dept. of Agriculture, Durgapura, Jaipur through e-Bid. UBN-AGR2425GLOB00375	Rs 182.50 Lakh (Rs One Crore Eighty Two Lakh Fifty Thousand Only)	20-12-2024 10.00 AM	09-01-2025 11.00 AM

Details may be seen in the bid document at the website of e-procurement portal <https://eproc.rajasthan.gov.in> state public procurement portal <https://sppp.rajasthan.gov.in>, <https://agriculture.rajasthan.gov.in> and <https://dipr.rajasthan.gov.in>

(Ajai Kumar Pachori) Joint Director Agriculture (Chemistry)

DIPRC/13395/2024

राजस्थान सरकार निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ. ख.अ. नीलामी/नीलामी (ML Bajr XIX)/2024/ई-09521

ई-नीलामी विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अध्याय खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय - के तहत विभाग के अध्याय खनिज बजरी के खननपट्टों के आवंटन के लिए निम्नांकित प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खुली बोली आमंत्रित की जाती है। सोक्षाव विवरण इस प्रकार है:-

जिला	तहसील	राजस्व गांव	प्लॉटों की संख्या
शाहपुर	जहाजपुर	रावतखेड़ा, रामपुरा	1
		तरनियखेड़ा, ओडियाखेड़ा, जामोली	1
सिरोही	फिण्डवाड़ा	जामोली रामगढ़	1
		जामोली रावतखेड़ा	1
सवाईमाधोपुर	चौध का बरवाड़ा	नया सवालका कोटड़ा, वीरवाड़ा, उन्दरा, परलाई	2
		अमरपुरा	1
टोंक	देवली	राजमहल	1
		राजमहल, नयागांव	1
टोंक	टोंक	सतवाड़ा	1
		बोरदा	1
योग	अहमदपुरा	सतवाड़ा	1
			12

विशेष नोट:- 1. प्लॉटों का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण, ई-ऑप्शन की शर्त विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदाता कंपनी MSTC Ltd की वेबसाईट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध है।

DIPRC/13345/2024 (भगवती प्रसाद) IAS निदेशक

कार्यालय नगर परिषद बारां (राज.)

E-Mail : nagarपालिकाबारां@gmail.com स्टेशन रोड, बारां Phone: 07453-230106

क्रमांक : नयाव / निर्माण / 2024 / 10089-91 दिनांक : 24.12.2024

ई-टेंडर सूचना संख्या : निर्माण 38/2024-25

नगर परिषद बारां द्वारा राजस्थान सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों अथवा पोइब्लिकएअर क्लस के अन्तर्गत पात्र संवेदकों से विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। संवेदक निविदा प्रपत्र व विवरण पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in व <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखें। कार्यों की लागत 9.27 लाख रुपये से 46.87 लाख रुपये तक है तथा UBN No. निम्नानुसार है:-

1. DLB2425WSOB13727, 2. DLB2425WSOB13728, 3. DLB2425WSOB13729, 4. DLB2425WSOB13730, 5. DLB2425WSOB13731

आयुक्त नगर परिषद बारां

राज.संवा.व/सी/24/9548

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।

Annual Rate Contract for Supply of Imported Items हेतु दर सौदा (ई-बोली आमंत्रण सूचना संख्या 04/2024-25 (क्रमांक 280 दिनांक 23.12.2024))

इस विश्वविद्यालय के अधीनस्थ इकाइयों में Supply of Imported Items हेतु दर सौदा (विक्री/विक्री व विधेय बिड) में दर सौदा हेतु ऑनलाइन ई-बोली आमंत्रित की जाती है। जिसमें पंजीकृत फार्म हेतु डी.एस.सी. के माध्यम से दिनांक 24.12.2024 से 13.01.2025 को सांय 5.00 बजे तक बोली प्रपत्र डाउनलोड कर अपलोड कर सकते हैं। UBN VDU2425GLRC00109 का विस्तृत विवरण स्टेट पोर्टल की वेबसाईट <http://sppp.raj.nic.in> विभाग की वेबसाईट www.rajavas.org एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

राज.संवा.व/सी/24/9566

वित्त नियंत्रक

OFFICE OF THE PRINCIPAL S. M.S.MEDICAL COLLEGE & CONTROLLER OF THE ATTACHED HOSPITALS, JAIPUR

No-F/MC/Store/2024-25/5375-78 Dated: 18-12-2024

Notice Inviting Bid

Bid for supply of Various Items for various Department of SMS Medical College for below mentioned items are invited from interested bidder's upto 07.01.2025 at 02.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajasthan.gov.in>, <https://sppp.rajasthan.gov.in>) of the state and SMS Medical College, Jaipur. website Department

UBN SMS2425GLRC00355

DIPRC/13424/2024 PRINCIPAL & CONTROLLER

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त सवाई माधोपुर

क्रमांक: 2105 दिनांक: 18-12-2020

निविदा सूचना संख्या : 09/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला सवाई माधोपुर में पुलिस मरम्मत कार्यों हेतु मरप पंच वर्ष तक दोष विनाश के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के 'ए' एवं 'ए' श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जायेगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट www.dipronline.org व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

NIB No.: PWD2425A3381

UBN No. - (1) PWD2425WSOB12415 (हरि सिंह मीना)

(2) PWD2425WSOB12417 अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त सवाई माधोपुर

DIPRC/13428/2024

कार्यालय उपवन संरक्षक, करौली (राज.)

(राजका की चौकी करौली) Phone & Fax No. 07464-297003

Email: dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in

Notice Inviting Bid

Bid for Boundary Wall Construction in Range Sapotra are invited from interested bidders. other particulars of bid may be visited on the procurement portal <http://sppp.raj.nic.in> and <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> of the state.

क्र. कार्य का विवरण यू.पी.एम.नंबर लागत लाखों में जारी दिनांक जमा व खोलेने की तिनांक

1. दीवार निर्माण कार्य UBN No. 29.78 18.12.2024 30.12.2024 व 31.12.2024

FOR2425WSRC03040

(सुमित बंसल) उप वन संरक्षक, करौली

DIPRC/13443/2024

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड टोडाभीम

क्रमांक: 2252-62 दिनांक: 18/12/2024

ई-निविदा सूचना संख्या: 09/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला गंगपुर सिटी (खण्ड टोडाभीम) में सड़क / भवन कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के 'ए', 'ए', 'बी', 'सी' श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जायेगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट www.dipronline.org व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

1. UBN No. PWD2425WSRC12345

2. UBN No. PWD2425WSRC12346

3. UBN No. PWD2425WSRC12347

(के.के. मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड टोडाभीम

DIPRC/13338/2024

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

(pwdaklera@rediffmail.com)

क्रमांक-1374 दिनांक -17.12.2024

ई-निविदा सूचना संख्या 11/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सड़क/भवन कार्यों के लिये उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के 'ए', 'ए', 'बी', 'सी' श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जायेगी। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट <http://dipr.rajasthan.gov.in/tenders.asp> व <http://www.ppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर देखा जा सकता है।

S.No. UBN No. S.No. UBN No.

1 PWD2425WSOB12320 2 PWD2425WSOB12327

3 PWD2425WSOB12328 4 PWD2425WSOB12329

5 PWD2425WSOB12331 6 PWD2425WSOB12332

लूटपाट करने वाली गुजराती गैंग के तीन बदमाश गिरफ्तार

ऑटो रिक्शा, सिटी बसों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर करते थे वारदात

जयपुर (कास)। खोह नागोरियान पुलिस ने लूटपाट करने वाली गुजराती गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गैंग की महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जानकारी में सामने आया है कि यह गैंग ऑटो रिक्शा, सिटी बसों और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर महिलाओं



खोह नागोरियान थाना पुलिस ने लूटपाट करने वाली गुजराती गैंग का पर्दाफाश किया।

■ पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही

की चेन और मोबाइल चुराने की वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्वीनी गौतम ने बताया कि खोह नागोरियान थाना पुलिस ने लूटपाट करने वाली गुजराती गैंग के शांति बदमाश राठौड़ अरविंद भाई धनजी (40), वाला रणजीत भाई बाबूभाई (29), वाला नेहा रणजीत (25) को गिरफ्तार किया है और तीनों ही आरोपी

भावनगर (गुजरात) के रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी जयपुर शहर में ऑटो किराए पर लिया जाता है।

जहां अपनी गैंग के सदस्य महिला साथी सहित ऑटो में बैठकर जयपुर शहर में यात्रियों को ऑटो में बैठा कर उन्हें चकमा देकर लूट जाती

है और फिर रास्ते में ही उतार कर फरार हो जाते हैं। इसके बाद आरोपित अपने मूल निवासी गुजरात चले जाते हैं और वहां लूट के जेवरत को औने-पौने दामों में बेच कर मौज-मस्ती करते हैं। लूट की राशि के खर्च होने पर गैंग पुनः इसी तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। यह गैंग सिटी बसों व अन्य

भीड़भाड़ वाली जगहों पर महिलाओं की चेन व अन्य महंगे सामान को शांतिराना अंदाज में नजर बचाकर पलभर में चुराने की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों से लूटपाट किए गए माल की बरामदगी सहित अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने वाला भू-माफिया गिरफ्तार

जयपुर (कास)। मुहाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी कर भूखंड को बेचने वाले एक भू माफिया देवेन्द्र सिंघल उर्फ देवेन्द्र सिंह लखनपुर जिला भरतपुर हाल मुहाना जयपुर को गिरफ्तार किया है। जानकारी में सामने आया है कि पुलिस काफी लंबे समय से आरोपी की तलाश कर रही थी। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि आरोपित देवेन्द्र सिंघल अपनी एमडब्ल्यू गाड़ी में कचरा फेंकने के लिए जा रहा था। जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए देवेन्द्र को दबोचा। धोखाधड़ी के इस संबंध में मुहाना थाने में परिवारी लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने मामला दर्ज करवाया था कि प्लॉट बेचने के नाम पर आरोपी देवेन्द्र ने 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की और पहले से बेचे हुए प्लॉट को परिवारी समेत तीन लोगों को बेच दिया। साथ ही बेचे गए प्लॉट पर चार बैंकों और फाइनेंस कंपनी से करोड़ों रुपए का लोन भी ले लिया। गिरफ्तार आरोपी एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचने में माहिर

- पूर्व में बिके हुए प्लॉट्स को दुबारा बेचने और बैंकों से फर्जी लोन उठाने में माहिर है आरोपी
- आरोपी देवेन्द्र सिंघल 10 से ज्यादा बैंकों और फाइनेंस कंपनी को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है

है। वहीं गैंग में शामिल लोगों के नाम से एक ही प्लॉट की बार-बार रजिस्ट्री कराता है और उन रजिस्ट्री पर अलग-अलग बैंकों से करोड़ों का लोन उठा लेता है। आरोपी ने 10 से ज्यादा बैंकों और फाइनेंस कंपनी को करोड़ों रुपए का चूना भी लगा चुका है। जो प्लॉट वजुद में नहीं है, उसका भी बैंकों से लोन लिया। पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है।

मुनाफे के लालच में युवक ने साढ़े 5 लाख रु. गंवाए

—कार्यालय संवाददाता—
जयपुर। मुहाना इलाके में साइबर ठगों द्वारा सोशल मीडिया पर लिंक भेजकर टास्क के जरिए प्रॉफिट कमाने का लालच देकर साढ़े पांच लाख रुपए एंटेन का मामला सामने आया है। थाने में पीड़ित ने साइबर ठग के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।

पुलिस ने बताया कि कृष्णा सरोवर कॉलोनी मुहाना निवासी अरुण शर्मा ने मामला दर्ज करवाया है कि उसके मोबाइल पर मैसेज आया और मैसेज करने वाले ने खुद का नाम आनंद बताया। सोशल मीडिया पर टास्क उपलब्ध करवाने और उनके बदले रुपए देने का काम करना और सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम को कुछ प्रोफाइल को लाइक व शेयर करने के लिए 50 रुपए के हिसाब देने की लिखा। मैसेज पढ़कर अरुण ने उसके बारे में और जानकारी मांगी।

एक टास्क के रूप में बताकर 2 हजार रुपए निवेश करने की बोला। बताए गए बैंक खाते नंबर में रुपए

डालने पर कुछ इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिंक उसे शेयर किए। लाइक कर टास्क पूरा होने पर 2 हजार 500 रुपए ट्रांसफर किए। दूसरे टास्क के बदले 9 हजार रुपए ट्रांसफर डलवाए। कहा गया कि आपके पास टेलीग्राम पर एक लिंक आया। उसमें आपको जब हम बोले तब "बिट कॉइन" पर ट्रेड करना होगा। जब हम बोले तब उसे रोकना है। टास्क पूरा करने पर प्रॉफिट के रुपए उसे शो होने लगे। लेकिन उसके निकाल नहीं सकता था। रुपए निकालने के बारे में पूछने पर कहा कि अभी 20 हजार तीसरे टास्क के डालो। उसके बाद 5 टास्क पूरा होने पर तुम्हारे रुपए प्रॉफिट के साथ बैंक अकाउंट में रिलीज हो जाएंगे। टास्क पर टास्क देकर कुल 5.64 लाख रुपए एंटेन लिए।

अंतिम टास्क पूरा होने के बाद अपने रुपए मांगने ने पर साइबर ठगों ने सम्पर्क खत्म कर दिया। साइबर ठगों में फंसकर रुपए गवाने का पता चलने पर पीड़ित थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया।

सार-समाचार

राजस्थान विश्वविद्यालय ने मृतक छात्र के परिजनों को पांच लाख रु. का चेक सौंपा



जयपुर। विश्वविद्यालय तरणताल पर राजस्थान विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र विभाग के छात्र विकास यादव की दुर्घटना में आकस्मिक निधन होने के कारण 26 दिसम्बर को कुलपति सचिवालय में छात्र कल्याण कोष से 5 लाख रु. की आर्थिक सहायता राशि का चेक स्वर्गीय छात्र के पिता राज मोहन को कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा ने प्रदान किया। इस अवसर पर अधिष्ठाता, छात्र कल्याण प्रो. राम अवतार शर्मा उपस्थित रहे।

तुषार गांधी का व्याख्यान आज

जयपुर। महात्मा गांधी के प्रौद्योगिकी और सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक तुषार गांधी 27 दिसम्बर को जयपुर में एक व्याख्यान देंगे। गांधी वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु मिश्र के कविता संग्रह समकाल के विमोचन कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित राजस्थान प्रौढ शिक्षण समिति के सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. जीवन सिंह करेंगे। लोक अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष लोकेश कुमार सिंह साहिल ने बताया कि सुधांशु मिश्र पिछले करीब 50 वर्ष से भारत के अनेक प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए विभिन्न पहलुओं पर पत्रकारिता करते रहे हैं। उन्होंने टेलीविजन तथा रेडियो पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। वर्तमान में वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हिंदी और अंग्रेजी में समकालीन मुद्दों पर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं और समकाल उनकी ही कविताओं का संग्रह है। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर काँग्रेस और बीजेपी में चल रही खींचतान के बीच तुषार गांधी के विचार महत्वपूर्ण होंगे।

आठ अपराधियों को किया तडीपार

जयपुर। जयपुर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे राजस्थान गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आठ अपराधियों को (तडीपार) जिला बंदर किया गया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (उत्तर) राशि डोगरा डूडी ने बताया कि विभिन्न अपराधों को अंजाम देकर समाज में भय और आतंक का माहौल निर्मित करने वाले एवं आगामी लोक सभा चुनाव के मध्यज्वर अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसके चलते कार्रवाई करते हुए लक्ष्मणदास निवासी नाहरगढ़, राहुल सैनी निवासी शास्त्रीनगर, अशफाक खान निवासी शास्त्रीनगर, मोहम्मद मुस्तफा निवासी शास्त्रीनगर, अजीत सिंह राव निवासी माणकचौक, अब्दुल राशिद निवासी ब्रहमपुरी, इनायत हुसैन निवासी गलतागेट और सोहन लाल निवासी ब्रहमपुरी जयपुर को (तडीपार) जिला बंदर किया गया है। जिला बंदर (निष्कासन) के दौरान सभी अपराधियों को निष्कासित अवधि तक जिले की सीमाओं से बाहर निष्कासित किया गया। जिला बंदर (निष्कासन) के दौरान सभी अपराधियों को जिले की सीमाओं से बाहर दौसा, सीकर, टोंक, झुन्डु और अजमेर जिलों में निष्कासित किये गये स्थान पर रहना होगा तथा संबंधित थाने में समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व बिना अनुमति जिला जयपुर की सीमाओं के किसी भाग में प्रवेश नहीं करेंगे।

वाहन चोर गिरफ्तार

जयपुर। शास्त्रीनगर नगर पुलिस ने शांति वाहन चोर सुनिल उर्फ सुलिया निवासी राणा कॉलोनी हसनपुरा जयपुर को गिरफ्तार कर चोरी का एक दुपहिया वाहन भी बरामद किया है। पुलिस उपायुक्त राशि डोगरा डूडी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

मुहाना क्षेत्र के स्कूल से 12वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण

जयपुर। मुहाना थाना इलाके में स्कूल की एक नाबालिग छात्रा के किडनैप का मामला सामने आया है। नाबालिग छात्रा स्कूल में पढ़ने गई थी। छुट्टी होने के बाद वापस घर नहीं लौटी। नाबालिग छात्रा के पिता ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस स्कूल छात्रा की तलाश में जुटी है। पुलिस ने बताया कि मुहाना निवासी व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी का किडनैप हुआ है। नाबालिग बेटी रामपुरा रोड मुहाना स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ती हैं। सोमवार दोपहर करीब 11 बजे उसे स्कूल में पढ़ने के लिए छोड़कर आए थे। शाम करीब 4 बजे स्कूल की छुट्टी होने पर

■ छुट्टी होने के बाद घर नहीं लौटी छात्रा, पुलिस टीम तलाश में जुटी

नाबालिग बेटी वापस घर नहीं लौटी। भाई के लेने पहुंचने पर नाबालिग छात्रा स्कूल में नहीं मिली। लापता हुई नाबालिग बेटी की परिजनों ने अपने स्तर पर तलाश शुरू की। काफी कोशिशों के बाद भी नाबालिग बेटी के नहीं मिलने पर मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस स्कूल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने के साथ ही छात्रा की तलाश कर रही है।

सूने मकान से चोरी हुए नकदी-जेवरत

जयपुर। चित्रकूट इलाके में चोर एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरत व नकदी ले गए। घटना की जानकारी पीड़ित को पड़ोसी ने दी। घटना के समय परिवार अपने गांव गया था। पुलिस के अनुसार डीएवी स्कूल के पास चित्रकूट निवासी चंद्रा देवी ने मामला दर्ज करवाया कि वह अपने परिवार के साथ गांव गई थी। पीछे से चोरों ने मकान का ताला तोड़ा और जेवरत व नगदी ले गए। घटना की जानकारी पड़ोसी ने दी कि उनके मकान का ताला टूटा हुआ है और लाइट भी जल रही है। इस पर वे गांव से वापस लौटे तो मकान का बाहर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कमरों के साथ अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। पुलिस ने साक्ष्य लेकर जांच शुरू कर दी है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

“ मौसम के जोखिमों से हमारे मेहनती किसान भाई-बहनों के हितों को सुरक्षित करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी कारगर साबित हो रही है। इसका लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है। ”

— नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ

सभी किसान भाई-बहनों को भी बताओ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धियां

- 19.67 करोड़ किसान भाई-बहनों को अब तक मिला फसल बीमा का लाभ
- ₹1.65 लाख करोड़ के दावों का भुगतान किसानों को किया
- 70 करोड़ से अधिक किसान आवेदन प्राप्त



देशव्यापी हेल्पलाइन 14447

पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2024



प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना

बीमा भागीदार: AIC, Chola MS, Future Generali, ICICI Lombard, Kshema, Oriental Insurance, Reliance, General Insurance, SBI General, Universal Sompo General Insurance

अपनी फसलों को आज ही बीमित करने के लिए संपर्क करें

जनसेवा केंद्र

क्रॉप इंश्योरेंस ऐप <https://play.google.com>

पोस्ट ऑफिस

बैंक शाखा

@PMFBY

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें

#TRENDING

New Travel Trend

The appeal of 'flying naked' lies in its simplicity. It allows for quicker airport navigation and reduced stress, ultimately transforming the way people perceive and engage with air travel.



Packing a suitcase for a flight can be a stressful experience. Many travellers find the packing process confusing and are unsure of what to include in

their luggage. However, a new travel trend is changing how we think about packing. 'Flying Naked.' This innovative cost-saving strategy is becoming popular among budget-conscious travellers. Here's how it works.

Bare Minimum

Travellers are increasingly sharing their experiences on social media about 'flying naked.' This movement encourages individuals to leave their luggage behind and embrace a more carefree approach to air travel. The essence of this trend revolves around the idea that passengers board flights with only the clothes on their bodies and a few vital essentials stashed away in their pockets.

carriers have adopted strict policies regarding carry-on luggage, charging hefty fees for bags that exceed size limits by just a few centimetres. In light of these soaring costs, travellers are actively seeking innovative solutions to avoid the financial burden of additional baggage fees. By choosing to travel without traditional luggage, these individuals minimise their expenses and streamline their travel experience. It allows for quicker airport navigation and reduced stress, ultimately transforming the way people perceive and engage with air travel.


The Whole Picture

While the trend of travelling with minimal belongings is gaining popularity with Gen Z, critics argue that while packing light may seem convenient, travellers may often need essentials upon arrival. This can quickly erase any savings from avoiding baggage fees. Moreover, this cycle of constantly buying and discarding items raises valid concerns regarding cost-effectiveness and environmental sustainability. It isn't just about the money spent, the environmental impact becomes significant when considering the waste generated from these disposable purchases. Despite these challenges, many resourceful travellers have ingeniously adapted to the 'flying naked' trend. For instance, some individuals choose clothing with multiple pockets, allowing them to carry essential items such as toiletries, snacks, and travel documents without extra bags. Others have devised creative methods, like stuffing clothes into neck pillows or using duty-free shopping bags, to avoid incurring additional charges. By employing innovative packing strategies and thinking outside the box, travellers are making the minimalist approach practical while being mindful of their budget.

Air Travel And Gen Z

Air travel has been experiencing several new trends pioneered by Gen Z and popularised through social media. How do you pass the time on a long flight? Do you read a book, watch the in-flight entertainment, listen to a podcast, or scroll through your phone? There's a new trend that abandons all of these options. Welcome to 'rawdogging,' a travel trend

that originated with young travellers who have chosen to forgo all forms of in-flight entertainment. Instead, they simply stare out the window or sit with their thoughts for the duration of the flight. This means no films, music, sleep, headphones, snacks, or distractions once seated. Alternative names for this meditative experience include 'bareback' and 'flying raw.'



St. Xavier's School, Jaipur, Batch 1964, Std. X-8.

Subodh Mathur

Subodh Mathur was one of my elder brothers. He passed away in Jaipur on 21 December 2024. What an older brother to have! He was born in Alwar, just a few days before India became independent in 1947.

He grew up in Alwar, Bharatpur, Jhalawar, Bikaner, and Ajmer, where our father was posted as the Collector. When we came to Jaipur in 1958, he had already been studying in Hindi-medium schools.

A few years ago, he wrote, "I remember attending Rumpuria High School in Bikaner. It was housed around an abandoned cinema hall. I recall that I played the lead role in a one-act play called *Jhitiya*, loosely based on the story of Red Riding Hood going to meet her Grandmother in a remote cot-



IRS Batch, 1971.

My Brother is No More

So also the Family Base

Subhash loved life and enjoyed it fully. But family came first. When Subodh was admitted in the early 1970s to a university in the US, he did not have a blazer or a coat. When Subodh was about to leave Jaipur, Subhash gave his stylish, precious Tweed coat to Subodh, so that he would have something warm. Later, when our mother passed away in 1980, Subhash asked for and got a transfer to Jaipur so that our father, who retired in 1969, would have good support. Later, in the 1990s, he organized a major family reunion in Gwalior, where he was posted in the Narcotics department.

Fruitcake Day

Fruitcakes, we've all seen them in the movies or grandma's kitchen. The heavy and dark cake that looks like it went through seven stages of baking and sounds like a fist thumping against a wooden table when set down on a surface. Yet, there is a day made for it. That's right, this day is called Fruitcake Day and it's made for the celebration of the cake that we all seem to find synonymous with a brick. Indulge in variations of a classic cake from all over the world or compete to see who can fling this fruit-packed favourite the furthest.



Calcutta Customs House.

than 4 lakh reads in December 2024 alone. Though he had grown up without computers, he set up and became the editor-cum-organizer of a website <https://inourdays.org/>, which records personal memories. In his college days, Subhash and his friends had put together a print magazine named the *Oasis*. All the material was in English. Quite a step for someone who had failed an English test in his school days. After he retired, he came back to writing short stories in English. Some of them were published in Rajasthan Patrika, one of them even made it to a national publication.

Subhash became a part of a group that offered free coaching to UPSC aspirants. In commercial establishments, he was one coach/teacher would have several students. Not in Subhash's group. They would form a panel of 3-5 senior people, who would do mock interviews with one young aspirant at a time, all free. One of the persons they coached topped the All-India list!



Feb 1972, LBS Mussorie.

#OBITUARY



St. Xavier's School, Jaipur, Batch 1964, Golden Jubilee, 2014.

Our father, Khem Chandji, was a senior IAS officer with a large family and no corruption. He was always a high-status family on a tight budget. On my father's first posting to Jaipur, he got a house in Civil Lines, which is now allocated to ministers. High status. But, between us three brothers, we had only one bicycle. Every evening, after we had come back from school by school bus, Subhash would lug his two younger brothers back to school, for swimming and sports. It was quite uphill from our home to at least the railway crossing.

He excelled in swimming and cricket, which he played for the school and Rajasthan University. After his MA from Jaipur, he gave the UPSC exam, and got into the Indian Revenue Service. By the time he left Jaipur to join the government, he had worked hard to woo Tilak Bhatnagar, a hostel student. They married in 1974, and had two sons, Gaurav and Tushar.

Subhash loved life and enjoyed it fully. But family came first. When Subodh was admitted in the early 1970s to a university in the US, he did not have a blazer or a coat. When Subodh was about to leave Jaipur, Subhash gave his stylish, precious Tweed coat to Subodh, so that he would have something warm. Later, when our mother passed away in 1980, Subhash asked for and got a transfer to Jaipur so that our father,

who retired in 1969, would have good support. Later, in the 1990s, he organized a major family reunion in Gwalior, where he was posted in the Narcotics department. Subhash followed my father in accepting no bribes. When he was a senior Customs officer in Calcutta, confiscating all kinds of goods, including the high-demand Sony Walkman portable cassette player, he asked me to bring him one from the US. I asked, "Why? Have you not confiscated any?" He just said, "I don't have one. Just bring it."

As part of his official work, he travelled to Japan and Canada, and also went to the US. And enjoyed those journeys thoroughly. On one of his official trips, he wanted to take his wife along with him. But, he did not have the money to buy her ticket. But, the family came through for him, and she could travel with him.

In the end, his reputation cost him heavily. In the early 2000s, he was posted in Ahmedabad as the Chief Commissioner, Excise. He was transferred from Ahmedabad to Delhi so that he could become a Member of the Central Excise Board, a very high rank. He moved to Delhi in anticipation of final orders giving him this job. All formalities had been completed, except the final, routine approval from the Prime Minister's Office. It was not to be. At the behest of some industrialist, who could not

tolerate such a person in the Board, at the very last minute, his name vanished from the list that went to the PMO. No explanation from anyone. The PMO made it clear that it had not deleted Subhash's name, they had approved the list as it came to them. Even the Union Finance Secretary, who was close to our oldest brother, PC Mathur and had spent endless hours in our Jaipur home before he became an IAS officer, could or would say nothing. It was a tremendous shock and hurt to him and the family. And, what next?

The Government offered him the Chief Commissioner job in Jaipur, which was not quite comparable to his job in Ahmedabad. They offered Jaipur because they knew Subhash wanted to eventually retire in Jaipur.


Subhash accepted the Jaipur job with grace. He ran that office with pride, ignoring the appalling events that had brought him there. He retired in 2007. Years later, the people in that office, and the Ahmedabad office, remember him fondly as a man they could talk to easily and freely, notwithstanding his rank. He followed the family tradition of not retiring. He joined Quora.com, which is a Q&A website, in 2017. He wrote nearly 18,000 answers on civil service issues. Quora shows that his answers have been read over 3 crore times in total, with more

By Rick Kirkman & Jerry Scott

BABY BLUES



ZITS



#INDIAN ARTIST

Tabla Vadak Amrit Hussain

When Amrit Hussain's fingers touch the surface of the tabla, a sound comes out that touches millions of hearts.



Zakir Hussain

Jaipur, little did I know that performing amongst international artists from 11 countries would change my destiny in such a way that I would get a chance to travel to around 60 countries and my favourite instrumental tabla would resonate in these places. But all this was made possible by my hard work and blessings of the masters and I had the privilege of playing tabla in more than 60 countries. This is to say of International Artist Amrit Hussain. About 18 years ago today, in 2003, in the city of Napoli, Italy, he represented India in the Orchestra di Piazza Vittorio of 11 countries and left a mark by presenting the art of our country very well. Artist Amrit Hussain's fortunes have shone in harmony with artists from 11 countries in a musical concert held at the National Theatre, Italy, and today, he is leading a campaign to integrate classical music with western music on foreign soil.

Tabla *Nauvaz* Amrit Hussain says that during the Europe tour in 2003, there was a chance to represent India with artists from 11 countries in a multinational orchestra. Since then, artists from these 11 countries became friends and due to this friendship, classical music started getting western music. When Amrit Hussain's fingers touch the surface of the tabla, a sound comes out that touches millions of hearts. The magic of these fingers rises on the head of the listeners. Amrit Hussain is fast recovering as a household name in western countries. Amrit Hussain, who has been instrumental in establishing tabla playing on the art scene, is a great tabla player and also a great music director and writer.

He has mastered in tabla playing Ek Taal, Teen Taal, Qaida, Tihaiya, Peshkar to Gaida, Tukda and some special restrictions as well as lessons from elders. Amrit Hussain is seen blooming on the stage. When he plays the tabla, there is a similarity in not only the rhythm, but also the technique and the sentiments, and it is this unique talent that sets him apart from others in the music world. Like his music, his thoughts act as a bridge between the past and the present and present a beautiful picture of his creative journey.

Made on the basis of Struggle

Amrit Hussain's tabla lyrics go down in the hearts of the listeners. He is not only a tabla seeker but also a famous personality of writer and musician. He has won the applause of the audience through his many compositions in foreign forums. Along with this, the flags are raised

Prestigious awards received in Poland and Morocco

Amrit Hussain has been honoured with many awards for the cultivation of his art. But he has also been awarded the Polish Frederick Grammy Award by the Government of Poland in 2015 and

through music in solo music and group bands. Starting from Jaipur about 18 years ago, his musical journey has so far reached 60 countries. He has been honoured with many prestigious awards on foreign soil for his remarkable contribution in tabla playing.




Music Bridge built between two countries

Amrit Hussain says that while living in Europe, he has been working to build a bridge of peace between the two countries through music for the past several years. He said that the relations between people of both the countries are very good with Indian


Amrit Hussain is from the family of 7 generations

Amrit Hussain says that he has inherited music. Music is being served in his *gharana* of 7 generations. "Our Abba, Ustad Rafiq Mohammad Saheb and Dada, Ustad Rasool Khan Saheb always say that this tabla is worshiped like Saraswati, and it is this unique talent that sets him apart from others in the music world. Like his music, his thoughts act as a bridge between the past and the present and present a beautiful picture of his creative journey.



By Jerry Scott & Jim Borgman

THE WALL



शिल्पग्राम : तमिलनाडु के कावडी कडगम, ओडिशा के संबलपुरी नृत्य ने मन मोहा

मुक्ताकाशी मंच पर विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों का सतरंगी संगम दिखा

उदयपुर, (कासं)। शिल्पग्राम महोत्सव के छठे दिन गुरुवार को मुक्ताकाशी मंच पर सैकड़ों लोक कला एवं संगीत प्रतियोगियों ने विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों और अन्य लोक प्रस्तुतियों का जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही, लोक धुनों पर खूब जमकर झुमे।

केंद्र के निदेशक फुरकान खान ने बताया कि 'लोक के रंग-लोक के संग' थीम से सजे देश भर की लोक संस्कृति से लबरेज शिल्पग्राम महोत्सव में छठा दिन भी दर्शकों के लिए यादगार बन गया। गुरुवार को मुक्ताकाशी मंच पर तमिलनाडु में देवता मुरुगन (मगवान कार्तिकेय) को रिझाने वाला डांस कावडी कडगम, ओडिशा के पश्चिमी इलाकों में हर पर्व-त्योहार और मांगलिक अवसरों पर होने वाले संबलपुरी नृत्य पर दर्शक झूम उठे। वहीं, मणिपुर के चेरोल जागोई थांगता, पश्चिम बंगाल के राय बैशा और नडुआ (शिव स्तुति) में मार्शल आर्ट का रोमांचक प्रदर्शन देख दर्शक खूब रोमांचित भी हुए। इनके साथ ही मणिपुर का गुंगल डोल चोलम में पुंग-



उदयपुर के शिल्पग्राम महोत्सव में लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी।

डोल की जहां खूबसूरत संगत दिखी, वहीं डांसर्स ने खूबसूरत नृत्य से दर्शकों का दिल जीत लिया। गुरुवार को पश्चिम क्षेत्र संस्कृति केंद्र, उदयपुर के 'शिल्पग्राम महोत्सव' में मुक्ताकाशी मंच पर डांसर्स ने हरियाणवी घूमर और असम के बिहु डांस पर कदमों की खूबसूरत लयकारी दिखाई तो, गुजरात के राठवा और ओडिशा का भगवान जगन्नाथ को समर्पित गोटीपुआ नृत्यों

में नर्तकों ने एक्रोबेटिक करतबों के डांस में समिश्रण का बेहतरीन प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। इन प्रस्तुतियों से पूर्व कार्यक्रम का आगाज नागाड वानन, गरासिया डांस वालार, पुरलिया छाऊ नृत्य और मांगणियार गायन और मारवाडी सफेद आंगी गेर से हुआ। वहीं, सफेद आंगी गेर में चंग की धुन और गेरियों के नृत्य ने दर्शकों को होली पर होने वाली बच्चों की दूँड की याद दिला

दी। दरअसल, यह गेर किसी भी परिवार के बच्चे की पहली होली पर होने वाली दूँड पर की जाती है। मुक्ताकाशी मंच पर हास-परिहास से परिपूर्ण मुकाभिनय 'माइम' ने दर्शकों को इतना गुदगुदाया कि कुछ ही पलों में लोगों ने कई बार उहाके लगाए। इसके साथ ही बहुरूपिया प्रदर्शन ने भी दर्शकों को खूब हंसाया। केंद्र के निदेशक फुरकान खान ने बताया कि गुरुवार को हॉलैंड

विदेशी सैलानियों के भी आकर्षण का केंद्र बना महोत्सव, जमकर खरीददारी की

(नीदरलैंड) की युवतियों जैसिका, कैया और युवक रायनियर ने हस्तशिल्पियों के स्टाल्स पर उत्पन्न देखे, उन्हें सराहा और खरीदारी भी की। जब उन्हें केंद्र के उप निदेशक पवन अमरावत, सीएल साल्वी (अधीक्षक अभियंता) और दुर्गा चंदवानी (सहायक निदेशक-विक्त एवं लेखा) ने उत्पादों के संबंध में पूछा तो इन्होंने एक स्वर में कहा- वाओ! दिस इज बेरी नाइस एंड एट्रेक्टिव। इसी तरह न्यूजीलैंड के कपल जोनाथन और यार्समीन ने बहुत खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'वंडरफुल फेस्टिवल, वी आर परचेसिंग मेनी आइटम्स हियर।' शिल्पग्राम के बंजारा मंच पर चल रहे 'हिवडा री हुक' में हर संगीत प्रेमी को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है।

कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार, सर्दी से लोगों की धूजणी छूटी

1.6 गिरावट के साथ 5 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान



लोगों ने अलाव जलाकर सर्दी से बचाव किया।

चुरू, (निस्)। अंचल में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से लोगों की धूजणी छुड़ाकर रख दी है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन घना कोहरा छाया रहा।

कोहरे से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री की गिरावट के साथ 5 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार सुबह करीब पांच बजे मौसम साफ था, लेकिन

दिन चढ़ने के साथ-साथ घना कोहरा बढ़ गया। कोहरे ने सुबह के समय चलने वाले वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। सड़कों पर वाहन रंगते नजर आए। राजाह रेलवे कंट्रोल रूम के अनुसार कोहरे के कारण कई ट्रेनें 15 से 20 मिनट लेट चल रही हैं।

सर्दी से राहत पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। धूकली बच्चों

की शीतकालीन छुट्टियां होने के कारण उनको सर्दी से राहत मिल रही है। कड़ाके की सर्दी के कारण शहर के बाजार सुबह देर से खुलते हैं और शां को जल्द ही बंद हो जाते हैं। सुबह के समय छाते वाले घने कोहरे से चने, सरसों व गेहूं की फसल को काफी फायदा मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया।

पुलिस ने इनामी बदमाशों को पकड़ा

हिंडौन सिटी, (निस्)। कोतवाली थाना पुलिस ने वांछित अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10 महीने से फरार सट्टा किंग और थाने के हिस्ट्रीशीटर इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपए का इनाम घोषित था। थानाधिकारी हरलाल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में राधामोहन प्रजापत और बनेसिंह प्रजापत को गिरफ्तार किया गया। राधामोहन प्रजापत थाने का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ जुआ और सट्टा संबंधित 14 मुकदमे दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम

ने गुजरात में छापा मारा, लेकिन आरोपी राधामोहन प्रजापत भनक लगते ही स्लीपर बस से जयपुर की ओर रवाना हो गया। कांस्टेबल पालवेंद्र को इसकी जानकारी मिलते ही एएसआई ओमीराय और टीम ने पीछा किया और आरोपी को किशनगढ़, जिला अजमेर के बाड़पास पर स्लीपर बस से गिरफ्तार कर लिया। वहीं, आरोपी बनेसिंह प्रजापत को जयपुर से पकड़ा गया। इस कार्रवाई में एएसआई ओमीराय, पालवेंद्र, जौहर सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर कांस्टेबल पालवेंद्र की सक्रियता से यह कार्रवाई सफल रही।

ट्रक-पिकअप की टक्कर में एक युवक की मौत

राजलदेसर, (निस्)। कस्बे से चार किलोमीटर दूर पनएच-11 पर पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। घायल को राजकीय अस्पताल राजलदेसर ले जाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद बीकानेर रेफर कर दिया।

हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया

का कोई काम करने जा रहे थे। तभी बीकानेर की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक ने घने कोहरे के चलते दिखाई नहीं देने पर पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में बलरामपुरा निवासी ओमप्रकाश (32) की मौत हो गई, जबकि बावलियां की ढाणी रिंगस सीकर निवासी हरिप्रसाद (42) गंभीर घायल हो गया। घायल को तुरंत राजलदेसर के

राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद बीकानेर रेफर किया गया। सूचना मिलने पर बिजली विभाग के सहायक अभियंता पंकज सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मामले में मृतक के भाई बलरामपुरा निवासी हंसराज की रिपोर्ट पर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ गफलत व लापरवाही से ट्रक चलाकर टक्कर मारने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप सुपुर्द कर दिया।

किसान की मौत

सरवाड़, (निस्)। सरवाड़ उपखंड क्षेत्र में इन दिनों तेज सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके चलते सरवाड़ उपखंड के गांव सनोदिया में खेत पर रखवाली करने गए किसान की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया वहीं थाना दीवान शिवचरण ने बताया कि ग्राम सनोदिया निवासी रतनलाल पुत्र नंदा भील अपने खेत पर रखवाली के लिए गया था। सुबह जब रतनलाल का भतीजा प्रहलाद चाय लेकर खेत पर गया तो रतनलाल खेत पर बनी झोपड़ी में अचेत अवस्था में पड़ा मिला, जिस पर उसने मामले की सूचना परिवार वालों व सरवाड़ पुलिस को दी। बाद में उसे सामूहिक चिकित्सालय लेकर आए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस के अनुसार किसान की मौत ठंड के कारण होना बताया गया है।

महिला ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या की

डूंगरपुर, (निस्)। चौरासी थाना क्षेत्र के पोहरी खतारुत गांव में एक महिला ने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पति और बेटे अहमदाबाद में काम करते हैं

आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ

पर अहमदाबाद से घर पहुंचा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चों में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

12वीं परीक्षा में डमी परीक्षार्थी बैठाने वाला इनामी गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओसिया में इस साल मार्च में 12वीं की परीक्षा में डमी परीक्षार्थी को बैठाने के आरोप में फरार चल रहे पांच हजार के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बारे में ओसिया में केन्द्राधीक्षक की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

कर अनुसंधान शुरू किया गया था। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि अब पुलिस टीम द्वारा फलोदी जिले के मतोड़ा थानातर्गत पल्ली निवासी मुकेश पुत्र अणुदराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी के अनुसार 4 मार्च को परिवारी राउमावि के केन्द्राधीक्षक पुखराज चावडक ने मय डमी छात्र के आवेदन

सम्बंधी रिकॉर्ड के उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की व बताया कि कक्षा 12वीं परीक्षा के समय स्कूल के छात्र यशवर्धन सिंह के स्थान पर डमी छात्र सुखराम व हरीश बेड के सथान पर डमी छात्र रवन्तराम द्वारा बैठकर परीक्षा देते समय संदेह होने पर पृष्ठताछ करने पर दोनों छात्र फर्जी परीक्षा देते हुए पाए गए। एसपी राममूर्ति ने बताया कि

पकड़ा गया आरोपी मुकेश जाट वांछित चल रहा था, जिसे अब पकड़ा गया है। पृष्ठताछ में पता लगा कि आरोपी मुकेश फर्जी व डमी परीक्षार्थी के रूप में स्वयं व अन्य परीक्षार्थी से सौदा कर बोर्ड परीक्षा व अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है, एक बड़ा परीक्षा गिरोह चलाता है। प्रकरण में चार आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

आम रास्ते से अतिक्रमण हटाया

बाँली-बामनवास, (निस्)। क्षेत्र बामनवास उपखंड मुख्यालय के सुमेल ग्राम पंचायत के अकोदिया ग्राम में हो रहे सार्वजनिक आम रास्ते के खसरा नंबर 274 से बामनवास पुलिस प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को हटा दिया। इस बाबत गंगपुर सिटी जिला कलेक्टर को बामनवास पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने 20 दिसंबर को एक पत्र भेज कर शिकायत की थी। इस पर जिला कलेक्टर ने 10 पुलिस कॉन्स्टेबल पुरुष व दो महिला पुलिस कॉन्स्टेबल को प्रशासन की सहायता के आदेश देकर अतिक्रमण हटाने वाली टीम को मौके पर पहुंचाकर इस पर कार्रवाई की। पुलिस व प्रशासन ने अतिक्रमण कर सरसों की फसल को जो कि आम रास्ते में खसरा नंबर 274 व 275 में उगा रखी थी उसे हटाकर आमजन के लिए खुलासा कर दिया।

कैशियर, सहायक अभियंता व सहायक राजस्व अधिकारी निलम्बित

अजमेर डिस्कॉम कैशियर द्वारा करोड़ों का गबन मामला, जांच जारी

अजमेर, (कासं)। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 21 दिसंबर को सहायक अभियंता मावली कायलिय में तैनात कैशियर के विरुद्ध मावली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद निगम के लेखाधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रथमदृष्ट्या जांच करने में करीब 1.15 करोड़ रुपयों के गबन का खुलासा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने 24 दिसंबर को कैशियर धर्मवीर चौधरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

अन्य कार्मिक के दोषी पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी

डिस्कॉम प्रबंधन ने संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से मावली उपखंड के सहायक अभियंता बुजेन्द्र गहलोट, कैशियर धर्मवीर चौधरी तथा सहायक राजस्व अधिकारी अद्वितीय निमावत को निलम्बित कर दिया है। निलम्बन काल में इन तीनों का मुख्यालय संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालय उदयपुर

रहेगा। प्रबंध निदेशक केपी वर्मा ने सभी संभागीय मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, मुख्य लेखाधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, वृत्त लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी को निर्धारित मानकों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्देशित किया है ताकि अनुचित कार्रवाई से बचा जा सके। वर्मा ने कहा कि जांच में जिस भी कार्मिक की संलिप्तता पाई जाएगी, उसके विरुद्ध निगम नियमनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

निर्माणाधीन रिसोर्ट में चोरी

उदयपुर, (निस्)। अंबामाता थाना क्षेत्र में अज्ञात चोर निर्माणाधीन रिसोर्ट से 126 किलो तांबे की पत्तियां और 10 से 12 वायर के बंडल चोरी कर ले गए।

पुलिस के अनुसार बाबूलाल पुत्र चुन्नीलाल निवासी पीपली चौक श्रीमाली कॉलोनी बडगांव ने मामला दर्ज करवाया कि वह शौर्यगढ़ रिसोर्ट एण्ड स्पा में निर्माणाधीन भवन में काम की देखरेख करता है। काम में प्रयुक्त होने वाले स्टोर के सामान की देखरेख एवं लेखा-जोखा भी उसके द्वारा किया जाता है। 21 दिसम्बर को लाइट एवं बिजली उपकरण काम आने वाली पत्तियां एवं वायर को निकालने के लिए गया लेकिन वहां पर सामान नहीं मिला। उसने स्टोर में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तो पता चला कि 19 दिसम्बर रात्रि को लागभग मीन बजे स्टोर में चोर आया जिसने तांबे की 126 किलो वजन की पत्तियां, वायर के 10 से 12 बण्डल चोरी कर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पंचायत समिति सदस्य ने होटल के कमरे खुद को बंद किया

पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला, पिछले तीन दिन से लापता था

उदयपुर, (कासं)। एक अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को होटल के कमरे में बंद कर तोड़फोड़ कर दी। होटल कर्मियों ने मशकत के बाद उसे दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला तथा पुलिस को सूचना दी। तहकीकात में पता चला कि अज्ञात व्यक्ति पंचायत समिति सदस्य मुकेश गाडरी है जो पिछले तीन दिनों से घर से लापता था।

जानकारी के अनुसार पंचायत समिति सदस्य दौड़ते हुए एक होटल में घुस गए। इसके बाद होटल के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और कमरे में तोड़फोड़ भी की। होटल कर्मियों ने बाहर आने को कहा तो चिल्लाते हुए बोले मैं बाहर नहीं आऊंगा तुम लोग मुझे मार

डालोगे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने एक घंटे की मशकत के बाद दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और परिजनों को सौंपा।

मामला उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके के सिटी सेंटर स्थित होटल प्रज्ञा का बुधवार देर रात 11 बजे का है। पूरे मामले के सीसीटीवी फुटेज गुरुवार दोपहर सामने आए। जानकारी की तो पता चला कि वह चितौड़गढ़ जिले के भूपालसागर पंचायत समिति सदस्य मुकेश गाडरी (40) है, जो तीन दिनों से अपने घर से लापता थे। इसके बाद परिजनों को जानकारी दी और उन्हें सौंपा। होटल संचालक ने मामला दर्ज नहीं करवाया है। मुकेश के परिचित सोनू

बैरवा ने बताया मुकेश की मानसिक स्थिति करीब एक माह से ठीक नहीं है। परिजन उन्हें लेकर चिंतित हैं और भूपालसागर के स्थानीय अस्पताल में इलाज भी करा रहे हैं। मुकेश 23 दिसंबर से घर पर बिना बताए चले गए थे। परिजन तीन दिन से उन्हें ढूँढ रहे थे। 25 दिसम्बर की रात पुलिस का फोन आया तो पता चला कि वे उदयपुर में हैं। यह अभी तक मालूम नहीं चल पाया कि वो भूपालसागर से उदयपुर क्यों और कैसे पहुंचे। मुकेश गाडरी के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। परिजनों का कहना है कि इस युवक पर किसी ने टोना-टोटका कर रखा है, इसी कारण वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है।

अजमेर में निगम ने दरगाह क्षेत्र में अस्थाई अतिक्रमण हटाया

निगम अधिकारियों को दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा

अजमेर, (कासं)। सुफी संत ख्वाजा साहब के 813वें सालाना उर्स की तैयारियों के मद्देनजर दरगाह बाजार क्षेत्र सहित परिधि इलाके में हुए अस्थाई अतिक्रमणों पर गुरुवार को अजमेर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमणों को हटाया। निगम की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकानदारों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस प्रशासन ने समझाइश कर मामला शांत कराया। निगम अधिकारियों ने दर्जनों दुकानों के बाहर नाली पर किए अस्थाई अतिक्रमण हटाए, कई दुकानों के बाहर से सामान भी जप्त किया।



अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों ने विरोध जताया।

एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में नगर निगम के दल ने गुरुवार को दरगाह थाना पुलिस और पुलिस लाइन के अतिरिक्त जापते की सहायता से उर्स मेले के मद्देनजर ढाई दिन का झोपड़ा से निजाम गेट, देहली गेट से निजाम गेट और नला बाजार क्षेत्र से अस्थाई अतिक्रमण हटाए

जमा हो गई। निगम के एक्सईएम धर्मेश आनंद ने बताया कि दुकानदारों ने नाली पर अस्थाई अतिक्रमण करते हुए पक्के निर्माण कर लिए थे। ये निर्माण न केवल अवैध थे, बल्कि मेले के दौरान आने वाले जायरीन के लिए भी बाधा उत्पन्न कर रहे थे। कई दुकानदारों ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि उन्हें अपने सामान हटाने का समय नहीं दिया गया। निगम

मौके पर पुलिस प्रशासन ने समझाइश कर मामला शांत कराया

अधिकारियों ने बताया कि कार्यवाई से पहले दुकानदारों को अपने स्तर पर अस्थाई अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। यहाँ उल्लेखनीय है जिला प्रशासन के साथ गत दिनों हुई बैठकों में अस्थाई अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलेक्टर लोक बंधु ने निर्देश दिए थे। अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद पुलिस ने दरगाह क्षेत्र में पत्तैग मार्च किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में शहर के चार थाना पुलिस ने देहली गेट, धानमंडी, दरगाह, लंगर खाना तकी, अंतरकोट व ढाई दिन के झोपड़े तक पत्तैग मार्च करते हुए दुकानदारों से शांति बनाए रखने की अपील की।

बिस्किट से भरा ट्रक जलकर राख, नौ लाख का नुकसान

चालक ने तत्परता से ट्रक से उतरकर अपनी जान बचाई

अजमेर, (कासं)। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-48 पर गोवालिया में बुधवार देर रात बिस्किट से भरा एक बर्निंग ट्रक बन गया। ट्रक में अचानक आग लगने ट्रक में भार सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग लगने की घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। दमकल और पुलिस की तत्परता से एक घंटे की मशकत के बाद आग पर काबू पाया

दमकल और पुलिस की तत्परता से आग पर काबू पाया गया

गया। आग लगने से करीब नौ लाख रुपये का नुकसान होना बताया गया है। बांदनवाड़ा चौकी प्रभारी गिरधर सिंह राठौड़ ने बताया कि यह हादसा विजय कमल पेट्रोल पंप के पास बीती रात हुआ। ट्रक अजमेर से भीलवाड़ा जा

रहा था और उसमें बिस्किट भरे हुए थे। अचानक पेट्रोल पंप के सामने ट्रक में स्पार्किंग होने लगी, जिसके कारण ट्रक धूँ-धूँ कर जलने लगा। चालक ने तत्परता से ट्रक से उतरकर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया।

घटना के दौरान हाइवे पर यातायात प्रभावित हुआ। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने करीब एक घंटे की मशकत

के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हाईवे पर अचानक हुए हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने मौके पर यातायात को डाइवर्ट किया। ट्रक में आग लगने के बाद आसपास चल रहे अन्य वाहन चालकों ने आनन-फानन में वाहनों को एक ओर ले गए।

मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के लिये दिया 6-ई फार्मूला

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा के लिए 6-ई फार्मूला दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं प्रभावितों को बेहतर देखरेख के लिये राज्य में 6-ई (एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, इवेल्यूएशन, एनोजमेंट) आधारित

■ सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक लेकर कहा, "जनवरी से सड़क सुरक्षा अभियान शुरू होगा"

■ सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी तय कर करें सख्त कार्यवाही : भजनलाल शर्मा

■ 'बोरेवेल से होने वाली दुर्घटनाओं की करें रोकथाम, राज्यों भर में नहीं हो कोई भी खुला बोरेवेल'



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को उनके निवास पर आयोजित सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक को संबोधित किया।

सुरक्षा उपायों का नियमित रूप से मूल्यांकन कर सुरक्षा उपायों में सुधार किया जाए तथा छठवें ई (एनोजमेंट) के तहत समुदाय एवं विभिन्न हितधारकों को सड़क सुरक्षा अभियानों में शामिल किया जाए।

शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें सरकार, प्रशासन और जनता सभी का योगदान आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मिशन मोड पर काम करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाए तथा प्रदेश भर में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए।

शर्मा ने कहा कि यातायात नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाए। चौथे ई (इमरजेंसी) के तहत दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित एवं सभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा पांचवें ई (इवेल्यूएशन) के तहत सड़क

साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर सहित तमाम प्रबंध सुनिश्चित किया जाए जिससे दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं एवं स्पीड मॉनिटरिंग उपकरण व ऑटोमेटेड चालान प्रणाली लागू की जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करे कि बिना परमिट के वाहनों की सड़कों पर आवाजाही ना हो तथा उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग हाइवे पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा सड़क पर किसी भी वाहन की अवैध रूप से पार्किंग नहीं हो। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा में कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाओं को विशेष आयोजनों पर सम्मानित किया जाए जिससे दुर्घटना में मदद करने वाले लोग प्रोत्साहित हों। शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर बनी समिति की राज्य स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग हो।

शासन सचिव परिवहन शुचि

त्यागी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य, अवैध कट्टस की स्थिति, सड़क सुरक्षा के मानकों की सुनिश्चितता सहित विभिन्न विषयों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक यू आर साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोडा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग वीणु गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग भास्कर ए. सावंत, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता, जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. भारती दीक्षित, जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित संबंधित विभागों एवं एनएचआई के अधिकारी उपस्थित रहे।

मीरा बाई व संतों पर टिप्पणी के आरोप मामले में पुलिस जांच रिपोर्ट पेश करे

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर की ओर से प्रकाशित श्रीमद्भागवत सेवा महापुराण अमृतम पुस्तक में भक्त शिरोमणी मीरा बाई सहित अन्य साधु-सन्नासियों पर टिप्पणी के आरोप मामले में करघनी पुलिस थाने से जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है। वहीं मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2025 को तय की है। कोर्ट ने यह निर्देश बालयोगी नोमीनाथ के परिवाद पर दिया है।

मामले से जुड़े अधिवक्ता अनिल चौधरी व सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व में भी पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया था, लेकिन पुलिस ने मामले में जांच नहीं की है। इसलिए कोर्ट ने पुलिस को पुनः जांच का निर्देश दिया है। परिवाद में कहा है कि इस पुस्तक में मां मीरा बाई के लिए गंभीर बातें कही गई हैं और यह सामाजिक व धार्मिक तौर पर मीरा बाई को कलंकित करने का प्रयास किया है। इस मामले में परिवादी के कोर्ट में बयान दर्ज हो चुके हैं। अपने बयानों में परिवादी ने कहा कि पुस्तक के पेज संख्या 59 पर परंपरागत संतों और सनातन सम्प्रदाय को नहीं मानने वालों को आतंकवादी कहा गया है। ऐसा कहना साधु सन्नासियों का घोर अपमान है। पुस्तक में राधा-कृष्ण के प्रेम को भी शारीरिक संबंधों के विश्लेषण की व्याख्या करते हुए कथाओं को तोड़-मोड़कर मनगढ़त तरीके से प्रकाशित किया गया है। परिवाद में नारायण सेवा संस्थान की कल्पना गोपाल और कमला अग्रवाल सहित अन्य को पक्षकार बनाया है।

शोक जताया

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरुवार को अजमेर रोड हादसे में भाजपा के बृथ अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी की असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांडस बंधाया।

बारिश से खराब सड़कों की मरम्मत के लिए 965 करोड़ रुपये स्वीकृत



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को निर्माण भवन में आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित किया।

■ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा : दिया कुमारी

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को विशेष अभियान चला कर दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, अतिक्रमण हटाने, स्पीड ब्रेकर ठीक करवाने, जेबरा क्रॉसिंग, साईनेज सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थायी मरम्मत करवाई जायेगी। इस रशि से सड़क पुल आदि की मरम्मत करवाई जायेगी।

उपमुख्यमंत्री गुरुवार को निर्माण भवन में आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उपमुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को नियमित फिल्ड विजिट कर सड़कों की गुणवत्ता जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी जिन सड़कों का निरीक्षण

करेंगे उसकी रिपोर्ट हर सात दिन में प्रस्तुत करेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि निरीक्षण की गई सड़कों की गुणवत्ता खराब मिलेगी तो निरीक्षण करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्बन फुट प्रिंट कम करने के लिए सड़क निर्माण में पर्यावरण हितैषी सामग्री का इस्तेमाल करें। उन्होंने बायो बिटुमिन का प्रयोग कर एक सड़क पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। डीपीआर निर्माण सेंट्रलाइज्ड हो, ताकि प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हों-उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट घोषणाओं सहित अन्य योजनाओं के तहत बनने वाले पुल, सड़क आदि की डीपीआर बनाने का कार्य सेंट्रलाइज्ड किया जाये ताकि समय पर

प्रोजेक्ट्स को शुरू करवाकर उन्हें तय अवधि में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा प्राय देखने में आता है कि स्थानीय स्तर पर डीपीआर बनाने के काम में देरी होने की वजह से काम समय पर शुरू नहीं हो पाते हैं और जनता को उसका तय समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। दृश्यता बढ़ाने के उद्देश्य से सड़क के शोल्डर्स की जंगल क्लियरेंस के कार्य, सड़क भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही, अनाधिकृत मॉडिफिकेशन कट को बंद किया जाना, रोड साइनेज व लेन मार्किंग के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करना, जंक्शन पर बिटुमिन ऑयल लाने व रम्बल स्ट्रिप्स के कार्य, घुमंतू जानवरों की रोकथाम हेतु स्थानीय निकाय से समन्वय कर सड़कों से दूर करना तथा एनजीओ अथवा रक्षा मित्र के साथ मिलकर कालर रिफ्लेक्टर लगाने सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जायेंगे। इसके साथ ही सड़क मिडियन पर लगे पेड़ों की ऊँचाई एक निश्चित हाईट के बाद छटाई करवाने के कार्य भी किए जायेंगे।

35 हजार के इनामी आरोपी को हत्या के मामले में मिली जमानत

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के मधुय गेट थाना इलाके में साथी बदमाश की गोली मारकर हत्या करने वाले 35 हजार रुपए के इनामी आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ बेबी को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस बिंदेश कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने याचिकाकर्ता आरोपी ट्रायल में पूरा सहयोग करेगा, अन्यथा संबंधित न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने को स्वतंत्र रहेगा। इसके अलावा वह बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा एक जमानती संबंधित ट्रायल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का निवासी होना चाहिए। जमानत याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र ने अदालत को बताया कि घटना का कोई चरमदीय

गवाह नहीं है। संजय सिंह के मृत्यु पूर्व बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह ने अपने मृत्यु पूर्व बयानों में आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उसे पीछे से गोली मारी और उसने पीछे मुड़कर उसकी पहचान की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इन बयानों की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े होते हैं। अभियोजन पक्ष के गवाह डॉ. रामावतार शर्मा ने बयान में कहा कि उसने संजय का इलाज नहीं किया, बल्कि बयान के समय उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। वहीं पुलिस अधिकारी ने बयान दिया कि उसने मृत्यु पूर्व बयान लिए और उसके बाद चिकित्सा से मरीज के बयान देने में सक्षम का प्रमाण पत्र लिया। याचिका में कहा गया कि ऐसी गलतियां मृत्यु पूर्व बयान को संदेहजनक बनाती

है। याचिकाकर्ता गत 20 फरवरी से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि जमानत के स्तर पर साक्ष्य का गहराई से विश्लेषण नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि मृतक संजय, याचिकाकर्ता बेबी और प्रकरण के अन्य आरोपी दोस्त थे और आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे। बेबी के खिलाफ दो दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और संजय के खिलाफ भी 21 प्रकरण दर्ज थे। इस दौरान जमीनी विवाद के चलते बेबी ने संजय सहित अन्य दोस्तों को पीट करने के बहाने 28 जनवरी, 2023 को रात बुलाया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।

पी.एम. के लाइव प्रसारण में दिया


कुमारी की सहभागिता

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को तीसरे वीर बाल दिवस उत्सव के अवसर पर "सुपोषित ग्राम पंचायत" अभियान का शुभारंभ किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुस्तक विजेताओं से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को साहस, नेतृत्व और दृढ़ता के महत्व पर प्रेरणादायक संदेश भी दिया।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी इस अवसर पर जयपुर में ओटीएस स्थित भगवत सिंह मेहता सभागार में कार्यक्रम के दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण में उपस्थित रहकर सहभागिता की। उन्होंने इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीर बाल दिवस के अवसर पर "सुपोषित ग्राम पंचायत" अभियान का शुभारंभ किया गया, यह प्रसन्नता की बात है। 17 वीर बालक-बालिकाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुस्तक से सम्मानित किया।

शीतकालीन अवकाश के बावजूद निजी स्कूल बुला रहे बच्चों को

जयपुर (कांस)। राज्य सरकार ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रदेश की सभी निजी व सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर रखा है। इसके बावजूद राजधानी जयपुर में ही निजी स्कूल संचालक राज्य सरकार के आदेशों की अहमेलना करने में लगे हैं। गुरुवार सुबह कडाके की ठंड में छोटे-छोटे बच्चे कांपते हुए जयपुर की निजी स्कूलों में जाते नजर आए, जबकि आज दिनभर सूरज के दर्शन भी नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिक्षा विभाग के आदेश से ऊपर, निजी स्कूल संचालकों की मनमज्ही है।



हिंदू धर्म की रक्षा और बलिदान की एक अनूठी गाथा है खालसा पंथ : ओंकार सिंह लखावत

जयपुर। भाजपा जयपुर जिला दक्षिण की ओर से गुरुवार को जिला स्तरीय वीर बाल दिवस कार्यक्रम नरेना के श्री गुरु चरण कमल साहिब गुरुद्वारा में स्थित पैनोरामा परिसर में आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत कहा कि किस प्रकार खालसा पंथ ने सनातन एवं धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण और अपने परिवार तक को न्योछावर कर दिया। यह गुरु गोविंद सिंह और उनके चार साहिबजानों की बस कहानी नहीं, यह गाथा है वीरता और धर्म के प्रति समर्पण की। जो हमेशा-हमेशा के लिए लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। इस गाथा को प्रेरणा वाली पीढ़ी के पटल पर जीवित रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया। लखावत ने सभी से यह आ न किया कि इन वीर बालकों की वीर गाथाओं को जानने और समझने के लिए हम सभी को अपने परिवार एवं बच्चों सहित राज्य सरकार द्वारा निर्मित इन पैनोरामा का भ्रमण अवश्य करना चाहिए।



भाजपा जिला दक्षिण की ओर से नरेना गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया।

इतिहास को जान सके कि किस प्रकार मुगल आक्रांताओं के घोर अत्याचारों से हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ ने और गुरु गोविंद सिंह के उन पुत्रों ने जिनकी आयु महज 7-9 वर्ष रही होगी अपनी जीवन लीला समर्पित कर दी। युवा पीढ़ी के लिए धर्म रक्षा एवं देशभक्ति की एक मिसाल कायम कर दी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने कहा कि हिंदू धर्म की

रक्षा के लिए ही खालसा पंथ का निर्माण हुआ और हम सभी खालसा पंथ के इस बलिदान के लिए सदैव ऋणी रहेंगे। गुर्जर ने वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार के और भी स्थल विकसित किए जाएं, जिससे इन बलिदानों को आने वाली पीढ़ी याद करते हुए प्रेरित हो सके। उन्होंने बताया कि जब मुगल आक्रांताओं ने गुरु गोविंद सिंह के दो

छोटे पुत्रों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को घोर यातना देते हुए इस्लाम धर्म कबूल करवाने का प्रयास किया, तब उन दोनों वीर बालकों ने मौत का आलिंजन स्वीकार किया, किंतु धर्म से विमुख नहीं हुए। "कैसे झुक जाते वह जिनकी रगों में गुरु गोविंद सिंह का खून था पर तो बस धर्म की रक्षा का जुनून था"। इस कार्यक्रम में फुलेरा पूर्व विधायक निमल कुमारवत ने संबोधन

■ साहिबजादों ने इस्लाम कबूल करने की बजाय मौत का किया आलिंजन : राजेश गुर्जर

के दौरान बताया कि सिख और हिंदू धर्म एक दूसरे के पूरक हैं जो सनातन और राष्ट्र की रक्षा के लिए ही अपना बलिदान देते आए हैं। अतः इनको आपसी सहयोग की भावना से धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अतः अब हम सब की जिम्मेदारी है खालसा पंथ की इस शहादत और शौर्य गाथाओं को जो घर-घर तक हम पहुंचाएंगे।

भाजपा जयपुर जिला मीडिया प्रभारी सुनील पारीक ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला महामंत्री अजय पाल सिंह, काता सोनवाल जिला उपाध्यक्ष शिवजी राम कुमावत, शिवजी राम भाभू, जिला मंत्री हेमंत मीणा कार्यक्रम संयोजक हृदय सुमन पारीक एवं जयपुर जिला के समस्त जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं सैकड़ों कार्यकर्ता और बाबा बलविंदर सिंह मुख्य सेवादार श्री गुरु चरण कमल साहिब गुरुद्वारा नरेना, बाबा निहाल सिंह उपसेवादार गुरुद्वारा सेवादार साहिब, मुख्य सेवादार बाबा सुभाष सिंह, हरभजन सिंह, लंडे सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में नरेना शहर भाजपा मंडल अध्यक्ष नटवर पारीक ने इस कार्यक्रम में पधारते हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

कर्मल राज्यवर्धन राठौड़ के प्रयासों से 10 हैंडपंप स्वीकृत

जयपुर। कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा भाजपा विधायक कर्मल राज्यवर्धन राठौड़ के सार्थक प्रयासों से जन सुविधाओं का विस्तार करते हुए शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु 10 हैंडपंप स्वीकृत किए गए हैं। राठौड़ के इस प्रयास की सराहना करते हुए क्षेत्रवासियों ने उनका आभार जताया है। यह हैंडपंप राजकीय विद्यालय के पास नयाबास, ढाणी नागान, जोबनेर, शिव मंदिर के पास, वार्ड नं. 5, जोबनेर, रेनवाल रोड, बबेरवालों की ढाणी, जोबनेर, पंचायत भवन के पास, बबेरवालों की ढाणी, जोबनेर, स्वामियों की ढाणी, भोजपुरा कलां, जोबनेर, बेटाडियों

की ढाणी, आसलपुर, जोबनेर, भगवानियों की ढाणी, जोरपुरा, जोबनेर, बाईपास रोड चौराहा, ढाणी नागान, जोबनेर, स्कूल गौशाला के पास, बस्सी नागान, जोबनेर और डेयरीवालों की ढाणी, आसलपुर, जोबनेर में लगाए जायेंगे। हैंडपंप लगाने के बाद से क्षेत्रवासियों की पानी की समस्या का निदान हो जाएगा।

कर्मल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन ने राजस्थान की डबल इंजन भाजपा सरकार सभी के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है।

पेपर लीक के आरोपी ढाका व सारण सहित पांच के संपत्ति कुर्की नोटिस

जयपुर। ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक, द्वितीय श्रेणी भर्ती : 2022 पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश कुमार ढाका, जोगेन्द्र सारण, सुरेश विश्वासी, प्रदीप खींचड़ व नेताराम कलबी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत संपत्ति कुर्की के नोटिस जारी किए हैं। वहीं कोर्ट ने इन आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर नौ पेश होने का निर्देश दिया है।

इस मामले में कोर्ट ने इन आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर रखा है। वहीं अब इनकी संपत्ति को कुर्की करने के नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों को इनकी संपत्तियों पर चप्पा किराया जाएगा ताकि कोर्ट में उनकी पेशी हो सके। एटीएस व एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि आरपीएससी ने वरिष्ठ

■ कोर्ट ने इन आरोपियों को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

अध्यापक, द्वितीय श्रेणी भर्ती : 2022 के सामान्य ज्ञान व मनोविज्ञान विषय की परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को प्रथम पारी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित की थी। इस दौरान गोपनीय सूचना पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही स्थानीय पुलिस उदयपुर ने पुलिस थाना बेकरिया के सामने रोड पर पिंडा नंबर से उदयपुर आने वाली एक बस में अभ्यर्थियों व डमी परीक्षार्थियों सहित अन्य आरोपियों से सामान्य ज्ञान व शैक्षिक मनोविज्ञान

विषय के प्रश्न पत्र के सॉल्व प्रश्न पेपर बरामद किए। इस बस से 37 अभ्यर्थियों सहित कुल 45 जनों को पकड़ा गया। पेपर लीक होने के चलते इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। बाद में यह परीक्षा 29 जनवरी 2023 को आयोजित की गई। बेकरिया पुलिस थाने में दर्ज इस मामले में अभी तक 66 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बाद सुखेर में भी लीक पेपर मामले के 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरेश कुमार ढाका इन दोनों मामलों में फरार चल रहा है। जबकि जोगेन्द्र सारण, सुरेश विश्वासी, प्रदीप खींचड़ व नेताराम कलबी बेकरिया मामले में फरार चल रहे हैं। इन दोनों मामलों का अनुसंधान एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार शर्मा कर रहे हैं।



मैं डीपी वर्ल्ड आईएलटी-20 के तीसरे संस्करण के लिए शाजाह वारियर्स टीम में शामिल होने और उसका नेतृत्व करने के लिए वाकई उत्साहित हूँ।

- टिम साउदी

न्यूजीलैंड के गेंदबाज आईएलटी-20 के तीसरे संस्करण में शाजाह वारियर्स की कप्तानी मिलने पर।



आज का खिलाड़ी



विराट कोहली

राष्ट्रदूत जयपुर, 27 दिसम्बर, 2024

9

भारत में हर वर्ष कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सर्वाधिक टैक्स का भुगतान करते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान कई भारतीय क्रिकेटर्स ने भी टैक्स का भुगतान किया है। विराट कोहली ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सबसे अधिक टैक्स क्रिकेटर्स की सूची में दिया है। विराट कोहली सबसे अधिक

टैक्स देने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने इस बार 66 करोड़ रुपये का टैक्स दिया है। उनकी ये आय मैच फीस, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन के जरिए जैसे कमता है। बता दें कि विराट कोहली दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में शुमार हैं।

क्या आप जानते हैं?... एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाड़ी ग्राहम गूच के नाम है। गूच ने 1990 में भारत के खिलाफ 333 और 123 रन बनाए।

जिला क्रिकेट संघ दौसा

जिला क्रिकेट संघ का शीतकालीन कैम्प 28 से

जयपुर, 26 दिसंबर जिले के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए जिला क्रिकेट संघ दौसा द्वारा प्रशिक्षण शिविर शुरू किया जा रहा है। इस कैम्प में छोटे बच्चों की क्रिकेट में छुपी प्रतिभा को बाहर लाने उनके हुनर को सुधारने और विशिष्ट प्रतिभाओं को तलाशने के लिए जिला क्रिकेट संघ दौसा द्वारा 4 दिवसीय शीतकालीन प्रशिक्षण शिविर 28 से 31 दिसम्बर को राजेश पायलट राजकीय स्टेडियम में लगाया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ के सचिव बृज किशोर उपाध्याय द्वारा यह बताया गया की शिविर में सभी आयु वर्ग अंडर -14, अंडर -16, अंडर-19, अंडर -23 और सीनियर वर्ग में खेलने वाले सभी खिलाड़ी का आना अनिवार्य है। इस शिविर के अंतर्गत उनका फिटनेस टेस्ट भी होगा। शिविर में बाहर के अनुभवी कोचों द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी खिलाड़ियों का उप्र प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र के साथ 28 दिसंबर को पंजीयन करेंगे। शिविर में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी अपने साथ आयु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की प्रतिलिपि साथ लेकर आए सुबह 10 बजे से मीके पर आए खिलाड़ियों का पंजीयन किया जाएगा। शिविर में खेल तकनीक की कमियों को सुधारा जाएगा। खास प्रतिभाओं पर अधिक विशिष्ट ध्यान देकर अभ्यास करवाया जाएगा ताकि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन खिलाड़ी कर सके।

डीएसए प्रीमियर लीग में दिल्ली एफसी, तरुण संघा की बड़ी जीत

नई दिल्ली, 26 दिसंबर प्लेयर ऑफ द मैच ओलेन सिंघे नींगप्रोजाम के दो शानदार गोलों की मदद से तरुण संघा ने यूनाइटेड भारत को 4 - 1 से हरा कर डीएसए प्रीमियर लीग के दूसरे चरण में बड़ी जीत के साथ शुरूआत की। दिन के दूसरे मैच में जैकब के दो बेहतरीन गोलों से दिल्ली एफसी ने नेशनल यूनाइटेड को 5-0 से परास्त किया। तरुण संघा के लिए नरेश मेठी और रिलेक्स सिंघे ने भी एक-एक गोल किया। वहीं यूनाइटेड भारत का गोल जगदल अख्तर ने किया। दिल्ली एफसी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' जैकब ने दो गोल किया। आरिस खान, अबेलसन जाची और थॉनाखोग मायाम ने एक एक गोल जमाए। विजेता टीम ने 12 मैचों में 25 अंक बना लिए हैं जबकि नेशनल यूनाइटेड 12 अंक जुटा पाई है। तरुण संघा ने दूसरे लेग की शुरूआत जीत के साथ की और 14 अंक बनाए हैं। पराजित यूनाइटेड भारत के मात्र छह अंक हैं और अंक तालिका में सबसे पीछे हैं।

राइडर्स, स्टार्स, राइडर्स और क्वींस बने आज एएमपीएल-25 में विजेता

जयपुर, 26 दिसंबर एएमपीएल 2025 में आज हुए 4 मुकाबलों में आयोजन सचिव, भगवान दास मंगल ने बताया कि पहला मुकाबले में निर्माण नगर राइडर्स को सुधाष नगर सनरॉजर्स से वाकओवर मिली। दूसरे मुकाबले में टॉक रोड स्टार्स ने अठावाल फार्म ब्लैस्टर्स को 24 रन से हराया जिसकी प्लेयर ऑफ द मैच डिंपल गोयल रही। उपाध्यक्ष ललित बोगी और कोषाध्यक्ष संजीव बंसल ने बताया कि दिन के तीसरे मैच में देवी नगर रॉयल्स ने निर्माण नगर रॉयल्स को 8 विकेट से हराया जिसकी प्लेयर ऑफ द मैच शिल्पी रही। चौथे मैच में मालवीनी नगर चैलेंजर्स ने निर्माण नगर राइडर्स को 7 विकेट से हराया जिसकी प्लेयर ऑफ द मैच दिया डेरेवाला रही।

वर्ल्ड ड्रॉप रोबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने पूर्व सांसद किरीट प्रेमभाई सोलंकी

जयपुर, 26 दिसम्बर स्वदेशी खेल ड्रॉप रोबॉल संघ के जनक ईश्वर सिंह आचार्य ने बताया कि स्वदेशी खेल ड्रॉप रोबॉल अब विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। 2008 में हरियाणा के ईश्वर सिंह आचार्य द्वारा शुरू किया गया ये स्वदेशी खेल अपनी सादगी,सस्ते उपकरणों और फिटनेस को बढ़ावा देने वाले स्वरूप के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, इसे अखिल भारतीय अंतर विश्व विद्यालय प्रतियोगिताओ सहित कई देशों में खेला जा रहा है, ड्रॉप रोबॉल के वैश्विक विकास के लिए गठित वर्ल्ड ड्रॉप रोबॉल फेडरेशन ने अहमदाबाद के पूर्व सांसद और समाज सेवा के प्रतीक डॉ किरीट प्रेमभाई सोलंकी को सर्व समिति से वर्ल्ड ड्रॉप रोबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है।

चार बल्लेबाजों के अर्धशतकों से ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन मैच पर बनाई पकड़

मेलबर्न, 26 दिसंबर स्टीव स्मिथ (नाबाद 68), उस्मान ख्वाजा (57), सैम कॉन्स्टास (60) और मार्नस लावुरेन (72) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को चौथे टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय छह विकेट पर 311 रन बनाकर मैच पर अपनी पकड़ बना ली है। इससे पहले आज यहां ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।



बीच दूसरे विकेट लिये 65 रनों की सझेदारी हुई। 45वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर इस सझेदारी

// 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप // कुशाग्र ने पाँच व्यक्तिगत पदक जीतकर तीन नए राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए

जयपुर/भोपाल, 26 दिसंबर 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 17 वर्षीय युवा निशानेबाज कुशाग्र सिंह राजावत ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से इतिहास रच दिया। भोपाल में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुशाग्र ने व्यक्तिगत इवेंट्स में कुल पाँच पदक जीते, जिनमें 3 रजत पदक शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने तीन नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिसमें से एक सीनियर श्रेणी में है। कुशाग्र ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस इवेंट में उन्होंने सीनियर श्रेणी में भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा, 50 मीटर राइफल प्रोन शूट में उन्होंने दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कुशाग्र सिंह राजावत की इस उपलब्धि ने न केवल उन्हें भारतीय निशानेबाजी का उभरता सितारा बना दिया है, बल्कि युवा निशानेबाजों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। उनकी यह उपलब्धि भारतीय खेल इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। भोपाल में आयोजित यह चैंपियनशिप भारतीय निशानेबाजी का सबसे बड़ा मंच है, जहां कुशाग्र का प्रदर्शन भारतीय खेल जगत के उज्ज्वल भविष्य का संकेत दे रहा है।



द. अफ्रीकी गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 211 रन पर समेटा

सेंचुरियन, 26 दिसंबर डेन पैटरसन (पांच विकेट) और कॉर्बिन बॉश (चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 211 के स्कोर पर समेट दिया। आज यहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरूआत अच्छी नहीं रही और 15वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने कप्तान शान मसूद (17) को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता दिलाई। अगले ही ओवर में डेन पैटरसन ने सैम अयूब (14) को आउटकर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद 18वें ओवर में पैटरसन ने बाबर आजम (चार) को अपना शिकार बनाकर दक्षिण अफ्रीका को तीसरी सफलता

दिलाई। सऊद शकौल (14) को कॉर्बिन बॉश ने आउट किया। पहले सत्र का खेल समाप्त होने के समय पाकिस्तान ने 24 ओवरों में चार विकेट पर 88 रन बना लिये थे। भोजनकाल के बाद पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजी आक्रमण के आगे नहीं टिक सका। कामरान गुलाम ने पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक (54) रनों की पारी खेली। पाकिस्तान ने भोजनकाल के बाद मात्र 123 रन जोड़कर अपने छह विकेट गवां दिये। मोहम्मद रिजवान (27), सलमान आगा (18), आमेर जमाल ने (28) रन और खुर्रम शहजाद (10) रन बनाकर आउट हुये। दक्षिण डेन पैटरसन और कॉर्बिन बॉश के गेंदबाजी आक्रमण के आगे पाकिस्तान की पूरी टीम 57.3 ओवर में 211 के स्कोर पर सिमट गई।

विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान ने हिमाचल को 2 विकेट से हराया

राजस्थान की जीत में अभिजीत तोमर, अजय सिंह कुकना का शानदार प्रदर्शन

जयपुर 26 दिसंबर मुंबई में खेले जा रही बीसीसीआई की विजय हजारे एक दिवसीय ट्राँफी के आज राजस्थान - हिमाचल टीमों के मध्य खेले गए मैच में राजस्थान ने हिमाचल टीम को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हराया , राजस्थान की जीत में अभिजीत तोमर , अनिकेत चौधरी , अजय सिंह कुकना , दीपक चाहर , दीपक हुड्डा , महिपाल लोमरोर का महत्वपूर्ण सहयोग। टॉस हारकर पहले खेलते हुए हिमाचल टीम ने ए कलसी 89 , ऐ चालिया 45 , एम शर्मा 31 , एस वर्मा 31 , ऋषि धवन 30 रनों का योगदान दिया। राजस्थान के गेंदबाज 67/4, अजय सिंह कुकना 71/3 , दीपक चाहर 51/2 , अमन सिंह 44/1 विकेट प्राप्त किये। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान टीम ने शानदार शुरूआत करते हुए सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 109 रनों



की सझेदारी की , अभिजीत तोमर ने शानदार अर्धशतकीय रनों की पारी खेली। अभिजीत तोमर 76 रनों की पारी में 96 गेंदों का सामना किया जिसमे 1 छक्के व 9 चोक्के लगाए , राममोहन चौहान 46 , दीपक हुड्डा 38 , महिपाल लोमरोर 36 रनों का योगदान दिया। राजस्थान ने 234 रनों के स्कोर पर अपने 6 विकेट खो दिए थे।

राजस्थान के आल राउंडर अजय सिंह कुकना व दीपक चाहर ने उसके बाद महत्वपूर्ण सझेदारियों करते हुए टीम को 8 विकेट के 287 रनों के लक्ष्य तक पहुँचाया। दीपक चाहर 21 गेंदों पर 2 छक्के व 1 चोक्के की सहायता से 26 व अजय सिंह कुकना ने 22 गेंदों पर 4 चोक्के के सहायता से नाबाद 26 रनों की महत्वपूर्ण

पारी खेलते हुए टीम को मैच के अंतिम ओवर में 2 विकेट से शानदार जीत दिलाई। टीम के लिए अभिजीत तोमर 76, राम मोहन 46, दीपक हुड्डा 38 , महिपाल लोमरोर 36, दीपक चाहर 26 व अजय सिंह कुकना नाबाद 26 का योगदान दिया। विजय हजारे ट्राँफी जयपुर में राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में खेले जा रही बीसीसीआई की सीनियर एक दिवसीय विजय हजारे ट्राँफी में आज खेले गए मैच - सर्वाई मान सिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में ओडिशा - उत्तराखंड मैच में ओडिशा ने उत्तराखंड को 75 रनों से हराया। के एल सैनी स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात ने आसाम को 8 विकेट से हराया। सोनी ग्राउंड में खेले गए मैच में गोवा ने मणिपुर को 171 रनों से हराया। जयपुरिया ग्राउंड में खेले गए मैच में झारखंड ने हरियाणा को 64 रनों से हराया।

// 69वीं राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता // जयपुर ने बीकानेर को 3-0 से हरा फाइनल में प्रवेश किया

जयपुर, 26 दिसंबर आयोजन सचिव सचि त गुप्ता के अनुसार जयपुर में चल रही 69वीं राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज कई आकर्षक मुकाबले हुए। पुरुष वर्ग की टीम प्रतियोगिता में प्रथम सेमी फाइनल में बीकानेर को 3-0 से हरा कर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं एक आकर्षक मुकाबले में कोटा ने जोधपुर को तीन शून्य से हरा कर फाइनल में जगह बनाई। महिला टीम मुकाबले में प्रथम सेमीफाइनल में जयपुर ने बीकानेर को तीन दो से हराकर फाइनल में प्रवेश किया वहीं दूसरे सेमीफाइनल में जोधपुर ने कोटा को तीन एक से हराकर सेमी फाइनल में प्रवेश किया। बालक वर्ग 17 के मुकाबले में आरव आचार्य जयपुर ने सौरभ कपूर जयपुर को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया वहीं अरमान भाटिया बीकानेर ने कडे मुकाबले में लक्ष्य तोषनीवाल कोटा को 3-1 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। बालिका वर्ग 17 के प्रथम सेमीफाइनल में समृद्धि व्यास



जयपुर ने मानवीका सिंह जयपुर को 3-0 से परास्त कर फाइनल में जगह बनाई वहीं द्वितीय सेमी फाइनल में अंजली सिंह बीकानेर ने राधिका सोनी जयपुर को तीन दो से हरा कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे।

जिम्बाब्वे के दो विकेट पर 92 रन

बुलाबायो, 26 दिसंबर वेन कर्न (68) रनों की अर्धशतकी पारी के दम पर जिम्बाब्वे ने गुरुवार को पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भोजनकाल तक अफगानिस्तान के खिलाफ दो विकेट पर 92 रन बना लिये हैं। भोजनकाल के समय टी काइटानो (नाबाद 13) और सीन विलियम्स (नाबाद 10) रन बनाकर खेल रहे हैं। आज यहां इससे पहले जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की जॉयलॉर्ड गंबी और वेन कर्न की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिये 43 रन जोड़े। नौवें ओवर में नवीद जदरान ने जॉयलॉर्ड गंबी (नौ) को आउट कर अफगानिस्तान को पहली सफलता दिलाई।

// संतोष ट्रॉफी सीनियर राष्ट्रीय पुरुष फुटबाल प्रतियोगिता // राजस्थान फुटबाल टीम ने मजबूत टीमों के समक्ष श्रेष्ठता साबित की

जयपुर, 26 दिसंबर फाइनल राउण्ड में पहुंची राजस्थान का पहला मुकाबला 14 दिसम्बर को मेजबान तेलंगाना से हुआ। फाइनल राउण्ड में देश की शीर्ष 12 टीमों हिस्सा ले रही हैं, जिसकी मेजबानी इस बार तेलंगाना कर रहा है। ग्रुप आई में राजस्थान की टीम दो जीत और एक ड्रॉ के साथ शीर्ष पर रही थी। लेकिन अब फाइनल राउण्ड में राजस्थान को 32 बार की संतोष ट्रॉफी चैंपियन बंगाल और गत विजेता तथा सात बार खिताब जीत चुकी सर्विसेज (सेना) जैसी मजबूत टीमों के समक्ष अपनी श्रेष्ठता साबित करनी थी। फाइनल राउण्ड में बंगाल और सेना के अलावा मणिपुर, मेजबान तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर भी

राजस्थान के ग्रुप में थे। सभी खिलाड़ियों ने अच्छे खेल का प्रदर्शन करने के बावजूद अगले राउंड में नहीं पहुंच सके लेकिन आज तक का यह सबसे अच्छा खेल प्रदर्शन था और राजस्थान टीम को आने वाली प्रतियोगिताओं में भी अच्छा खेलने का प्रयास करना होगा। सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष राजस्थान टीम ने सभी मजबूत टीमों के साथ अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। पिछले वर्ष की विजेता टीम सर्विसेज हो या बंगाल जैसी अनुभवी टीम को भी अपने खेल से परेशानी में रखा। अभी तक इन सभी टीमों से राजस्थान को एक बड़े अंतर से हार का सामना



करना पड़ता था लेकिन अब राजस्थान भी मजबूती के साथ खड़ा है। हम आगामी वर्षों में ग्रास रूट के साथ साथ सीनियर वर्ग के खेल में सुधार लाने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं।

राजस्थान में अच्छे और अनुभवी प्रशिक्षक के साथ मिलकर आगामी वर्षों का रोड मैप तैयार किया जा रहा है और लम्बे अंतराल के प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों के खेल में सुधार किया जा सके जिससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। महिला विंग चेरमैन रोशनी टॉक ने खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को सहारा और आगामी वर्षों के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अनुभवी प्रशिक्षक के साथ मिलकर टीम को और मजबूत बनाया जायेगा।

विराट कोहली और सैम कॉन्स्टास के बीच मैच के दौरान हुई बहस

कोहली पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना



मेलबर्न, 26 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को भारत विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के लिए पदार्पण कर रहे सैम कॉन्स्टास के बीच टकराव के बाद बहस हुई। आज यहां खेले जा रहे मैच में घटनाक्रम 10वें ओवर के दौरान उस समय हुआ जब कोहली और कॉन्स्टास ओवर की समाप्ति के बाद पिच पर आपस में टकरा गए। इसके तुरंत बाद दोनों उस्मान ख्वाजा ने बीच बचाव किया। सत्र में बाद में रिप्ले सामने आने पर यह दिखा कि कॉन्स्टास दूसरे छोर की ओर जा रहे थे लेकिन पिच के बाहर से गेंद को हाथ में टॉस करते हुए आ रहे कोहली कॉन्स्टास से टकरा गए। मैच के बाद कॉन्स्टास ने कहा, मैं समझ नहीं पाया मैं दस्ताने ठीक कर रहा था और तब कंधे टकरा गए। लेकिन यह क्रिकेट में होता रहता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉटिंग ने कॉमेंट्री के दौरान कहा, जरा देखिए विराट कैसे चल रहे हैं। विराट पिच की दाईं ओर गए और इस टकराव की शुरूआत उन्हीं की ओर से हुई। स्थानीय चैनल से साइमन टॉफिल ने इस घटना को आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अनुचित बताया।

ओ. एन. दीक्षित मेमोरियल में पदमजा सिंह दो वर्गों के फाइनल में पहुंची



जयपुर, 27 दिसंबर ओ. एन. दीक्षित मेमोरियल जयपुर जिला वेडमिंटन प्रतियोगिता में आज लड़कियों के चार वर्ग के सेमीफाइनल खेले गए तथा लड़कों के एक वर्ग का सेमीफाइनल खेला गया जिसमें पदमजा सिंह ने लड़कियों के 13 व 15 वर्ष की आयु के दोहरे फाइनल में प्रवेश किया। महिला एकल सेमी फाइनल में साधना सीकरवाल ने गुंजन स्वामी को 21-17, 22-24, 21-18 से हराया वहीं आराध्या ढीगरा ने दूसरे सेमीफाइनल में अपेक्षा चौधरी को दो संघर्ष गेमों में 22-20, 21-16 से परास्त किया। लड़कों के अडर-11 सेमीफाइनल में लखित जिसमें पदमजा सिंह ने लड़कियों के 13 व 15 वर्ष की आयु के दोहरे फाइनल में प्रवेश किया। महिला एकल सेमी फाइनल में साधना सीकरवाल ने गुंजन स्वामी को 21-17, 22-24, 21-18 से परास्त किया। इसके अलावा लड़कों के अंडर 13 के सेमीफाइनल में सिद्धार्थ, प्रणव मूलचन्दानी, अद्विक मित्तल व महिला एकल के फाइनल में प्रवेश किया। अंडर 11 लड़कियों के एकल सेमीफाइनल में मिरया फगोरिया ने 21-6, 21-6 से सस्य तक्षाली को तथा दूसरे सेमीफाइनल में आसाम को 8 विकेट से हराया। सोनी ग्राउंड में खेले गए मैच में गोवा ने मणिपुर को 171 रनों से हराया। जयपुरिया ग्राउंड में खेले गए मैच में झारखंड ने हरियाणा को 64 रनों से हराया।

खो-खो को प्रमोट करेंगे सलमान खान

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर बॉलीवुड स्टार और खो-खो विश्वकप के ब्रांड एंबेसडर सलमान खान अगले महीने 13 जनवरी शुरू होने वाले खो-खो विश्वकप के मैचों के दौरान स्टार स्पॉटर्स, डिजिटल, सोशल मीडिया के जरिए देश और दुनिया में इस खेल को प्रमोट करेंगे। खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर पर इस विश्वकप आयोजन के प्रचार और जागरूकता के लिए अभिनेता सलमान खान को केंद्र में रखते हुए मैगा मल्टीमीडिया अभियान शुरू करेगा। अभिनय के जरिए सलमान खान खो-खो विश्वकप के लाइव मैचों के दौरान स्टार स्पॉटर्स, डिजिटल, सोशल मीडिया के जरिए विश्व भर में इस खेल के प्रति लोगों को प्रेरणाहित करेंगे। इन्दिरा गाँधी इनडोर स्टेडियम में खो-खो विश्वकप के शुभारम्भ के अवसर पर सुपर स्टार सलमान खान भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले पहले मैच को देखेंगे और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे। खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और विश्वकप आयोजन समिति के अध्यक्ष सुशांशु मित्तल ने बताया कि सलमान खान की लोकप्रियता से इस खेल को भारत के अलावा दुनियाभर में प्रमोट करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सलमान खान को खो-खो विश्वकप का ब्रांड एंबेसडर बनाने का उद्देश्य अधिकतम युवाओं को खो-खो के प्रति आकर्षित करना है ताकि अधिक से अधिक लोग खो-खो विश्वकप मैचों को स्टेडियम, के.के.एफ.आई ने टाइगर श्राफ खो-खो विश्वकप का सह-ब्रांड एंबेसडर बनाया है। भारतीय खो-खो महासंघ (केकेएफआई) ने खो-खो विश्वकप 2025 के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार टाइगर श्राफ को सह-ब्रांड एंबेसडर बनाया है। भारतीय खो-खो महासंघ ने बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता टाइगर श्राफ को सलमान खान के साथ खो-खो विश्वकप के सह-ब्रांड एंबेसडर बनाये जाने की घोषणा की।

5

कारण जश्न मनाने के

GRAND
ARENA
MONTH

₹ 108 100 तक के शानदार ऑफर्स

₹ 15 000 तक के एक्सचेंज ऑफर्स

आपकी पुरानी कार की बेस्ट रीसेल वैल्यू

आकर्षक फाइनेंस विकल्प

मारुति सुजुकी जनवरी में कीमतों में बढ़ोतरी करेगी,
मारुति सुजुकी कारों की कीमतों में
4% तक की बढ़ोतरी होगी।

ऑफर्स स्टॉक रहने तक मान्य

विशेष
ऑफर

ALTO K10 ₹88 100* | SWIFT ₹108 100*
BREZZA ₹50 000* | WAGONR ₹78 000*



SCAN TO
CONNECT
TO SHOWROOM
NEAR YOU



E-BOOK TODAY AT
WWW.MARUTISUZUKI.COM

4
दिन
शेष

T&C Apply. Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black Glass Shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper. Offers vary across variants. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on selected models/variants. Above mentioned savings amount is the value of maximum savings on selected models. Offer valid with selected financiers only. Above offers are valid till 31st December, 2024.

